



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29--मई 5, 2006 (वैशाख 9, 1928)

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29—MAY 5, 2006 (VAISAKHA 9, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2006

सं. 216, दिनांक 3 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 72) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में इससे पूर्व अपर सचिव श्री रणजीत इस्सर को वैयक्तिक तौर पर पद का अस्थायी रूप से दर्जा बढ़ाकर उन्हें 28.2.2006 (पूर्वाह्न) से 7.3.2006 (अपराह्न) तक रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग में अपर सचिव श्री विनोद कुमार ढांड को 1 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से, मंत्री के पद पर बने रहने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जुलाई, 1997 (एस एल-1997) से अगले आदेश जारी होने तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अपर सचिव) में नियुक्त करते हैं:--

| क्रम सं. | नाम तथा पदनाम | अवर सचिव (स्व-स्थाने/ तदर्थ आधार पर) के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख |
|----------|---------------|--|
|----------|---------------|--|

| | | |
|----|---------------|----------------------|
| | सर्वश्री | |
| 1. | सहेली घोष रॉय | 24.12.97 (पूर्वाह्न) |
| 2. | रोशन लाल कपूर | 02.09.94 (पूर्वाह्न) |
| 3. | एन. सी. गौड़ | 28.09.98 (पूर्वाह्न) |
| 4. | चांद कुमार | 30.09.98 (पूर्वाह्न) |
| 5. | एम. के. रॉय | 08.10.98 (पूर्वाह्न) |
| 6. | जे. के. जैन | 30.09.98 (पूर्वाह्न) |

2. अवर सचिव के रूप में उपर्युक्त नियुक्तियों को अनुमोदित सेवा तथा वेतन निर्धारण के प्रयोजन से सैद्धांतिक आधार पर 01 जुलाई, 1997 से प्रभावी माना जाएगा। तथापि, वास्तविक लाभ उसी तारीख से देय होंगे जिस तारीख से उपर्युक्त अधिकारी अवर सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे/हैं।

3. इसके अलावा, अधिकारियों की उपर्युक्त नियुक्तियां श्री आर. के. ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व अन्य और भारत संघ बनाम विजय कुमार व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्वधीन हैं।

4. कृपया एफ आर-22 के अंतर्गत वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प इस अधिसूचना के जारी होने के एक माह के भीतर इस अनुभाग को भेज दिया जाए।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जुलाई, 1998 (एस एल-1998) से अगले आदेश जारी होने तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं:--

| क्रम सं. | नाम तथा पदनाम | अवर सचिव (स्व-स्थाने/ तदर्थ आधार पर) के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख | अभ्युक्तियां |
|----------|------------------|--|-----------------|
| | सर्वश्री | | |
| 1. | संजय रथ | 27.08.98 (पूर्वाह्न) | त्याग-पत्र दिया |
| 2. | दिवाकर | 12.10.98 (पूर्वाह्न) | |
| 3. | आर. राजगोपाल | 28.09.98 (पूर्वाह्न) | |
| 4. | एस. एन. हल्दर | 16.11.98 (पूर्वाह्न) | |
| 5. | एफ. के. पांडे | 23.10.98 (पूर्वाह्न) | |
| 6. | ओ. बी. चक्रवर्ती | 26.10.98 (पूर्वाह्न) | |

2. अवर सचिव के रूप में उपर्युक्त नियुक्तियों को अनुमोदित सेवा तथा वेतन निर्धारण के प्रयोजन से सैद्धांतिक आधार पर 01 जुलाई, 1998 से प्रभावी माना जाएगा। तथापित, वास्तविक लाभ उसी तारीख से देय होंगे जिस तारीख से उपर्युक्त अधिकारी अवर सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे/हैं।

3. इसके अलावा, अधिकारियों की उपर्युक्त नियुक्तियां श्री आर. के. ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व अन्य और भारत संघ बनाम विजय कुमार व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्वधीन हैं।

4. कृपया एफ आर-22 के अंतर्गत वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प इस अधिसूचना के जारी होने के एक माह के भीतर इस अनुभाग को भेज दिया जाए।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जुलाई, 1999 (एस एल-1999) से अगले आदेश जारी होने तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं:--

| क्रम सं. | नाम तथा पदनाम | अवर सचिव (स्व-स्थाने/ तदर्थ आधार पर) के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख | अभ्युक्तियां |
|----------|----------------|--|--------------|
| | सर्वश्री | | |
| 1. | वी. के. जैन | 28.09.98 (पूर्वाह्न) | |
| 2. | जी. पी. हल्दर | 05.10.98 (पूर्वाह्न) | |
| 3. | वी. के. भाटिया | 28.09.98 (पूर्वाह्न) | |
| 4. | के. के. शिल | 28.09.98 (पूर्वाह्न) | |

2. अवर सचिव के रूप में उपर्युक्त नियुक्तियों को अनुमोदित सेवा तथा वेतन निर्धारण के प्रयोजन से सैद्धांतिक आधार पर 01 जुलाई, 1999 से प्रभावी माना जाएगा। तथापित, वास्तविक लाभ उसी तारीख से देय होंगे जिस तारीख से उपर्युक्त अधिकारी अवर सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे/हैं।

3. इसके अलावा, अधिकारियों की उपर्युक्त नियुक्तियां श्री आर. के. ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व अन्य और भारत संघ बनाम विजय कुमार व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्वधीन हैं।

4. कृपया एफ आर-22 के अंतर्गत वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प इस अधिसूचना के जारी होने के एक माह के भीतर इस अनुभाग को भेज दिया जाए।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 01 जुलाई, 2000 (एस एल-2000) से अगले आदेश जारी होने तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं:--

| क्रम सं. | नाम तथा पदनाम | अवर सचिव (स्व-स्थाने/ तदर्थ आधार पर) के रूप में आरंभिक नियुक्ति की तारीख | अभ्युक्तियां |
|----------|----------------|--|--------------|
| | सर्वश्री | | |
| 1. | एम. आर. बीरह | 20.12.96 (पूर्वाह्न) | |
| 2. | मुरलीधर भाटिया | 28.09.98 (पूर्वाह्न) | |
| 3. | बी. के. लूथरा | 28.09.98 (पूर्वाह्न) | |
| 4. | एच. जी. स्याल | 30.09.98 (पूर्वाह्न) | |

2. अवर सचिव के रूप में उपर्युक्त नियुक्तियों को अनुमोदित सेवा तथा वेतन निर्धारण के प्रयोजन से सैद्धांतिक आधार पर 01 जुलाई, 2000 से प्रभावी माना जाएगा। तथापित, वास्तविक लाभ उसी तारीख से देय होंगे जिस तारीख से उपर्युक्त अधिकारी अवर सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे/हैं।

3. इसके अलावा, अधिकारियों की उपर्युक्त नियुक्तियां श्री आर. के. ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व अन्य और भारत संघ

बनाम विजय कुमार व अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन हैं।

4. कृपया एफ आर-22 के अंतर्गत वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प इस अधिसूचना के जारी होने के एक माह के भीतर इस अनुभाग को भेज दिया जाए।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

सं. 217, दिनांक 3 अप्रैल, 2006.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एस आर पराशर का कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 01 मार्च, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1, अवर सचिव (तदर्थ) पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित समूह "ग" आशुलिपिक श्री संजय छाबड़ा, जो इस समय रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक समूह "क" एवं "ख" (विलयित)/(निजी सचिव) के पद पर तैनात हैं, का नाम वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड (परीक्षा कोटा) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें 28 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में इसी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी (रैंक नं. 162) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका (सी) संख्या 13245-60/2005 के निर्णय के अध्यक्षीन हैं।

3. श्री संजय छाबड़ा, अनुभाग अधिकारी के वेतन आदि का निर्धारण उनके द्वारा आशुलिपिक समूह "ग" में आहरित वेतन के संदर्भ में यह मानते हुए किया जाएगा कि उन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2003 के आधार पर आशुलिपिक समूह "क" एवं "ख" (विलयित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। तथापि, उनके द्वारा निजी सचिव के रूप में आहरित वेतन तथा भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।

टी. पी. केरकेटा
अवर सचिव

सेना शाखा

राष्ट्रीय कैंडेट कोर महानिदेशालय

सं. 218, दिनांक 4 अप्रैल 2006.--राष्ट्रपति महोदय, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 के नियम 7(8) के अंतर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित) (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500) के रूप में दिनांक 28 फरवरी 2006 से 23 अगस्त 2006 तक अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, उस समय तक नियुक्त करते हैं।

(क) श्रीमती शीला देवी

(ख) श्रीमती सुदेश कौन

2. यह नियुक्ति पूर्णतः कामचलाऊ के आधार पर है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

3. अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

4. उक्त अधिकारी का अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता या अनुमोदित सेवा के लिए उस समय तक कोई दावा नहीं होगा जब तक कि वे स.से.मु.सि.से. नियमावली 2001 के नियम 7(4) तथा अनुसूची IV में दिये गये प्रावधानों के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं हो जाते। उस स्थिति से पहले अधिकारी की वरिष्ठता, अनुमोदित सेवा आदि उनके मूल ग्रेड यानी सहायक ग्रेड में मानी जाएगी।

5. ये नियुक्ति न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय जो सहायक ग्रेड में वरिष्ठता को प्रभावित कर सकते हैं, के लागू करने के क्रम में संभाव्य आवश्यक संशोधनों के अध्यक्षीन होगी।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी (प्रशा.)

सेना शाखा

सं. 219, दिनांक 10 अप्रैल 2006.--राष्ट्रपति विशेष थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 02 सितम्बर 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 7 विशेष 66 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये और वेतन वृद्धि के लिये दिनांक 06 नवम्बर 98 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 02 सितम्बर 05 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किये गये अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गयी है।

एस एस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एस एस 38560 आईसी-64954एम, रविंदर नेगी, ई एम ई

एस एस 38552 आईसी-64955पी, कपिल सानावार, ई एम ई

एस एस 38562 आईसी-64956एक्स, मंदीप सिंह निज्जर, इंजीनियर्स

एस एस 38571 आईसी-64958एच, राजेश शर्मा, सिग्नल्स

एस एस 38557 आईसी-64959एल, दिनेश सिंह, महेंद्रा सिंह, इंजीनियर्स

एस एस 38563 आईसी-64960ए, विक्रम खुर्मी, इंजीनियर्स

एस एस 38551 आईसी-64962एल, कुलकर्णी अंजित विजय, ईएमई
 एस एस 38553 आईसी-64963एल, गौरव अग्रवाल, ईएमई
 एस एस 38567 आईसी-64964डब्ल्यू, विनोद कुमार विजयान, इंजीनियर्स
 एस एस 38566 आईसी-64965वाई, शैलेंद्रा सिंह, इंजीनियर्स
 एस एस 38565 आईसी-64966एफ, मिश्रा अखिलेश कन्हैया लाल, इंजीनियर्स

राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों को उसके/उनके 02 सितम्बर 2005 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिये तारीख 02 मई 2001 से लेकिन वेतन वृद्धि के लिये तारीख 02 सितम्बर 2000 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 02 सितम्बर 2005 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/अधिकारियों की तुलना में जिन्हें स्थायी कमीशन दिया जायेगा उसकी/उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जा अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई थी।

एस एस सं., आईसी सं., नाम, आर्म/सर्विस

एस एस 38610 आईसी-64999एम, विशाल राना, इंफैंट्री
 एस एस 38574 आईसी-64971एम, अभिषेक सिंह, एसी
 एस एस 38575 आईसी-64972पी, नारायण सिंह भाटी, इंफैंट्री
 एस एस 38576 आईसी-64973एक्स, राजेश डोगरा, इंफैंट्री
 एस एस 38577 आईसी-64974ए, रजनीश कुमार, एडी आर्टी
 एस एस 38578 आईसी-64975एच, आतीक अहमद मोहम्मद कासिम सिद्धकी, आर्टी
 एस एस 38579 आईसी-64976एल, एच सबरीनाथ, इंफैंट्री
 एस एस 38580 आईसी-64977एन, मनीष ठाकुर, सिगनल्स
 एस एस 38581 आईसी-64978डब्ल्यू, अरुण कुमार चोबे, ईएमई
 एस एस 38582 आईसी-64979वाई, तरवेणी प्रशाद शर्मा, इंफैंट्री
 एस एस 38583 आईसी-64980एन, के पूरन चंद्र राव, इंजीनियर्स
 एस एस 38584 आईसी-64981डब्ल्यू, गिरीश अवस्थी, मैक
 एस एस 38585 आईसी-64982वाई, सुमित सभरवाल, आर्टी
 एस एस 38589 आईसी-64984के, देवेन्द्र आनंद, आर्टी
 एस एस 38590 आईसी-64985एम, प्रवीण कुमार, इंफैंट्री
 एस एस 38594 आईसी-64987एक्स, गोरख सिंह सेनजर, इंफैंट्री

एस एस 38595 आईसी-64988ए, सुनील कुमार, एसी
 एस एस 38597 आईसी-64990एक्स, विवेक सिंह चुन्दावत, इंफैंट्री
 एस एस 38601 आईसी-64992एच, जयदेव सिंह गुलेरिया, आर्टी
 एस एस 38603 आईसी-64993एल, गुरिंदर पाल सिंह अमोल, आर्टी
 एस एस 38604 आईसी-64994एन, शशी भूषण जाट, एडीआर्टी
 एस एस 38605 आईसी-64995डब्ल्यू, शैलेन्द्र कुमार सिंह, इंफैंट्री
 एस एस 38606 आईसी-64996वाई, दीपक कुमार सिंह मेहरा, एडीआर्टी
 एस एस 38607 आईसी-64997एफ, संदीप दुग्गल, एसी
 एस एस 38608 आईसी-64998के, आदवित्य कुमार सिन्हा, इंफैंट्री
 एस एस 38614 आईसी-65000एन, देबराज भट्टाचार्य, इंफैंट्री
 एस एस 38617 आईसी-65001डब्ल्यू, आलोक शुक्ला, आर्टी
 एस एस 38619 आईसी-65002वाई, गगन मल्होत्रा, आर्टी
 एस एस 38623 आईसी-65004के, पवन सिंह, ईएमई
 एस एस 38626 आईसी-65005एम, अनुज सूदन, एसी
 एस एस 38627 आईसी-65006पी, समीर भारती, इंफैंट्री
 एस एस 38628 आईसी-65007एक्स, गुलरेज हसन, आर्टी
 एस एस 38629 आईसी-65008ए, आशीष खन्ना, इंफैंट्री
 एस एस 38635 आईसी-65010एक्स, संजय यादव आर्टी
 एस एस 38636 आईसी-65011ए, विकास, इंफैंट्री
 एस एस 38638 आईसी-65012एच, दिलीप आर, इंफैंट्री
 एस एस 38639 आईसी-65013एल, जितेन्द्र सिंह, इंट्रि
 एस एस 38641 आईसी-65014एन, वी सिवरामन, इंजीनियर्स
 एस एस 38642 आईसी-65015डब्ल्यू, सुभाष सिंह चौहान, इंफैंट्री
 एस एस 38644 आईसी-65016वाई, संबित कुमार साहु, आर्टी
 एस एस 38646 आईसी-65017एफ अनिर्बान भौमिक, इंफैंट्री
 एस एस 38648 आईसी-65018के, हर्ष वर्धन सिंह राठौर, एओसी
 एस एस 38649 आईसी-65019एम, दीप सिंह भिंडर, एसी
 एस एस 38652 आईसी-65020एफ, जस्विन्दर सिंह कौडा, आर्टी
 एस एस 38653 आईसी-65021के, अशोक कुमार मिश्रा, इंफैंट्री
 एस एस 38654 आईसी-65022एम, दिनेश सिंह तंवर, इंफैंट्री
 एस एस 38656 आईसी-65023पी, इंद्रजीत चोष, इंफैंट्री
 ✓ एस एस 38659 आईसी-65024एक्स, नरेन्द्र सिंह शेखावत, इंजीनियर्स
 एस एस 38662 आईसी-65025ए, सौरभ शर्मा, आर्टी
 एस एस 38668 आईसी-65026एच, समीर अवस्थी, आर्टी

- एस एस 38669 आईसी-65027एल, विजय सिंह, इफै
- एस एस 38673 आईसी-65029डब्ल्यू, अमित कंदारी, इफै
- एस एस 38675 आईसी-65031एन, अश्विनी कुमार लाल, इंजीनियर्स
- एस एस 38678 आईसी-65032डब्ल्यू, प्रदीप शर्मा, इंजीनियर्स
- एस एस 38679 आईसी-65033वाई शैलेश सत्यार्थी, आर्टी
- एस एस 38680 आईसी-65034एफ, दीपक चौधरी, एडी.अ. ई
- एस एस 38681 आईसी-65035के, शैलेश राव, इफै
- एस एस 38682 आईसी-65036एम, ताकीर मुंखताब, इफै
- एस एस 38684 आईसी-65037पी, विशाल दीदी, इफै
- एस एस 38685 आईसी-65038एक्स, सुखदीप सिंह, इफै
- एस एस 38687 आईसी-65039ए, नरेश पराशर, एडीआर्टी
- एस एस 38688 आईसी-65040पी, प्रसंजीत बासु, इफै
- एस एस 38693 आईसी-65041एक्स, नील गगन सिंह कथुरिया, मैक
- एस एस 38694 आईसी-65042ए, शौर अन्जुग, ईएमई
- एस एस 38695 आईसी-65043एच, सूर्य प्रकाश, आर्टी
- एस एस 38696 आईसी-65044एल, पंकज रावत, इंजीनियर्स
- एस एस 38698 आईसी-65045एन, जगदीप सिंह, इफै
- एस एस 38700 आईसी-65046डब्ल्यू, आशीष हानसेन, इफै
- एस एस 38705 आईसी-65048एफ, नरेंद्र प्रसाद, इफै
- एस एस 38712 आईसी-65050वाई, किशन सिंह गेहरा, आर्टी
- एस एस 38717 आईसी-65051एफ, हेरल्ड थोगस, आर्टी
- एस एस 38718 आईसी-65052के, अमरप्रीत सिंह, आर्टी
- एस एस 38719 आईसी-65053एम, राहुल नानजप्पा, इफै
- एस एस 38720 आईसी-65054पी, दुबाश फिरदोश परवेज, इफै
- एस एस 38721 आईसी-65055एक्स, जोगिंदर पाल सिंह, इफै
- एस एस 38722 आईसी-65056ए, कैलाश बिष्ट, एएससी
- एस एस 38724 आईसी-65057एच, नमित गिनोचा, आर्टी
- एस एस 38725 आईसी-65058एन, भानु प्रताप सिंह, इफै
- एस एस 38728 आईसी-65059एन, महेन्द्र सिंह धारीवाल, इफै
- एस एस 38729 आईसी-65060एच, अगित कुमार कर्णवाल, आर्टी
- एस एस 38733 आईसी-65061एल, जिसांतो के, एडीआर्टी
- एस एस 38735 आईसी-65062एन, कशिश वाधवा, इफै
- एस एस 38736 आईसी-65063डब्ल्यू, जैरी मनोहर, इफै
- एस एस 38737 आईसी-65064वाई, राजबीर सिंह, इफै
- एस एस 38739 आईसी-65065एफ, संतोष कुमार सिंह, इफै
- एस एस 38741 आईसी-65066के, अनीष कटोच, आर्टी
- एस एस 38742 आईसी-65067एम, गुरमिंदर सिंह, आर्टी
- एस एस 38744 आईसी-65068पी, माणिक त्रेहन, एसी
- एस एस 38745 आईसी-65069एक्स, मनोज चौधरी, इफै
- एस एस 38746 आईसी-65070एम, जावेद अब्दी, आर्टी
- एस एस 38750 आईसी-65071पी, रवि जी रैना, आर्टी
- एस एस 38754 आईसी-65072एक्स, श्रवण कुमार अग्रवाल, इफै
- एस एस 38755 आईसी-65073ए, बुरूमायुम रंजीत शर्मा, इफै
- एस एस 38756 आईसी-65074एच, विजय अब्राहम थामपी, इंजीनियर्स
- एस एस 38760 आईसी-65077डब्ल्यू, महावीर सिंह, आर्टी
- एस एस 38761 आईसी-65078वाई, अनुभव गैरोला, एसी
- एस एस 38763 आईसी-65079एफ, अमित गुप्ता, आर्टी
- एस एस 38766 आईसी-65080डब्ल्यू, विक्रांत, एओसी
- एस एस 38767 आईसी-65081वाई, डिसोजा जार्ज रूजे, इफै
- एस एस 38769 आईसी-65083के, मनीष मोहन सिन्हा, एएससी
- एस एस 38770 आईसी-65084एम, प्रीतीपाल सिंह अहलुवालिया, ईएमई
- एस एस 38772 आईसी-65085पी, आदीप पाल पानेसर, ईएमई
- एस एस 38773 आईसी-65086एक्स, निशित थप्लियाल, इफै
- एस एस 38776 आईसी-65087ए, आशीष चौहान, इंजीनियर्स
- एस एस 38777 आईसी-65088एच, जे शैरी, इंजीनियर्स
- एस एस 38779 आईसी-65089एल, सम्राट नागर, मैक
- एस एस 38780 आईसी-65090ए, प्रवीन कुमार, ईएमई
- एस एस 38781 आईसी-65091एच, समीर सोमान, आर्टी
- एस एस 38782 आईसी-65092एल, गेगन वैडफाड़, इफै
- एस एस 38784 आईसी-65093एन, रवि राजा, इफै
- एस एस 38788 आईसी-65094डब्ल्यू, अभिमन्यु सिंह, इफै
- एस एस 38791 आईसी-65096एफ, शल्य चौधरी, इफै
- एस एस 38794 आईसी-65098एम, भुपिन्द्र सिंह संधु, इफै
- एस एस 38803 आईसी-65099पी, पी प्रमोथ, आर्टी
- एस एस 38806 आईसी-65100वाई, आलोक कुमार सिन्हा, इफै
- एस एस 38808 आईसी-65102के, धीरज मोहगिल, इफै
- एस एस 38809 आईसी-65103एम, मनीष कुमार, इफै
- एस एस 38810 आईसी-65104पी, दिनेश चंद्रा वशिष्ठ, एओसी

एस एस 38817 आईसी-65107एच, अमित शर्मा, इंफैं
एस एस 38819 आईसी-65108एल, शमन कुमार, इंफैं
एस एस 38824 आईसी-65109एन, गुहनराज के, ईएमई
एस एस 38825 आईसी-65110एच, इशान राज दारापु, आर्टी

एम एल एन श्रवण कुमार
कर्नल
कर्नल एमएस-7

वायु शाखा

सं. 220, दिनांक 10 अप्रैल, 2006.-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट्स (Brevets) परखाधीन प्रदान करते हैं ये अफसर स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट्स परखाधीन प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय वायु सेना
उड़ान (नेवीगेटर) शाखा
भूतपूर्व फ्लाइट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर कौशिक भट्टाचार्या (27688), पाण्डेय रतनाकर (27698), अंकित गुरुदु (27704), अमित कुमार (27718), प्रियादर्शी धर (27720), दिनांक 20 दिसम्बर 03 से।

संजीव श्रीवास्तव
विंग कमाण्डर
जेडीपीओ 3 (डी)

सं. 221, दिनांक 3 अप्रैल, 2006--भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा: 72) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष सचिव श्री रणजीत इस्सर की नियुक्ति शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में सचिव के रूप में अनुमोदित हो जाने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 8 मार्च, 2006 (पूर्वाह्न) से शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 222, दिनांक 3 अप्रैल, 2006.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित लेफ्टिनेंटों की परखावाधि समाप्त होने पर, उनकी सेवा की, उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से पुष्टि करते हैं:--

नियमित सेना
अल्प कालीन कमीशन

रैंक एवं नाम, वैयक्तिक संख्या, कोर, पुष्टि की तिथि
लेफ्टि दीपक वर्मा (वी एस-1083एच) आर वी सी, 13 सितम्बर 2004
लेफ्टि सुभाष चन्द्र पटियाल (वी एस-1084एल) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि विजय सिंह शेखावत (वी एस-1085एन) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि गुरदीप सिंह (वी एस-1086डब्ल्यू) आर वी सी, 13 सितम्बर
2004

लेफ्टि मनोज कुमार भट्ट (वी एस-1087वाई) आर वी सी, 13 सितम्बर
2004

लेफ्टि गजेन्द्र सिंह राठौर (वी एस-1088एफ) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि सन्धोष एम (वी एस-1089के) आर वी सी, 13 सितम्बर 2004

लेफ्टि आलोक कुमार पलौई (वी एस-1090वाई) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि अमित (वी एस-1091एफ) आर वी सी, 13 सितम्बर 2004

लेफ्टि करबासप्पा गुर्नवर (वी एस-1092के) आर वी सी, 13 सितम्बर
2004

लेफ्टि परवेश सिंह (वी एस-1093एम) आर वी सी, 13 सितम्बर 2004

लेफ्टि दर्पण बेडेकर (वी एस-1094पी) आर वी सी, 13 सितम्बर
2004

लेफ्टि अवधेश कुमार शर्मा (वी एस-1095एक्स) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि प्रवीण एम कल्लापुर (वी एस-1096ए) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि नलिन शर्मा (वी एस-1097एच) आर वी सी, 13 सितम्बर 2004

लेफ्टि विकास कुमार प्रधान (वी एस-1098एल) आर वी सी,
13 सितम्बर 2004

लेफ्टि योगेश सिंह (वी एस-1099एन) आर वी सी, 13 सितम्बर 2004

लेफ्टि मितेश मित्तल (वी एस-1100एक्स) आर वी सी, 13 सितम्बर
2004

एस पी शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 223, दिनांक 4 अप्रैल, 2006.--

नियमित सेना

इन्फैंट्री

गार्डस ब्रिगेड्स

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक के लिए

सूबेदार (क्लर्क) रिसी पाल सिंह (जेसी-402432एफ), 03 अगस्त
2005*

*(सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार (क्लर्क) सतबीर सिंह दहिया (जेसी-402441एच), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार के रैंक के लिए

नायब सूबेदार अरून कुमार सिंह (जेसी-403057एन), 13 जून 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-403075डब्ल्यू), 16 जून 2005

नायब सूबेदार सिस पाल (जेसी-403365एन), 28 जून 2005

नायब सूबेदार राम निवास सिंह (जेसी-403077एफ), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र त्रिपाठी (जेसी-403232एक्स), 29 जुलाई 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रिसाल सिंह (जेसी-403004पी), 30 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीपाल (जेसी-403122एच), 12 अगस्त 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-403144एफ), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-403202एफ), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-402871एम), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार गोहिन चन्द्र बोरा (जेसी-402966एम), 27 सितम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उमा शंकर (जेसी-403078के), 22 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कैलाश सिंह (जेसी-403215एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार ओमबीर सिंह (जेसी-403325एम), 25 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-403226के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार परमानाथन एसी (जेसी-403227एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार यग पाल (जेसी-403234एच), 02 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विनोद कुमार के (जेसी-403252एल), 24 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-403254एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार हरी कृष्ण (जेसी-403302एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार हन्स राज (जेसी-403319वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राना राम चौधरी (जेसी-403331ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सीस राम (जेसी-403336वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-403338के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-403377एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार रवेन्द्र कुमार (जेसी-403448वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-403295ए), 17 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बीरेन्द्र सिंह यादव (जेसी-403097पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार माखन लाल जोशी (जेसी-403303एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-403466एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राम कुमार (जेसी-403185एल), 06 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार खेम राज (जेसी-403221एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मनिन्दर सिंह (जेसी-403312पी), 07 दिसम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक के लिए

नायब सूबेदार (क्लर्क) भूप नारायण (जेसी-402928डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) नवल किशोर सिंह (जेसी-403001एफ), 24 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) चनाबासप्पा हुडेड (जेसी-403041एच), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) ओंकार नाथ त्रिपाठी (जेसी-403130एफ), 07 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) जेम्स पी जे (जेसी-403433डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सरजीत सिंह (सं. 13688957डब्ल्यू अब जेसी-403801ए), 02 अगस्त 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार मोहन लाल (सं. 13688232डब्ल्यू अब जेसी-403802एच), 11 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सरबेश्वर सैकिया (सं. 13688132एल अब जेसी-403803एल), 21 जुलाई 2005

हवलदार रतन सिंह (सं. 13682591एन अब जेसी-403804एन), 22 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राम सिंह कठायत (सं. 13682607एन अब जेसी-403805डब्ल्यू), 22 जुलाई 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 13687233एम अब जेसी-403806वाई), 01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम दयाल सिंह (सं. 13686381एल अब जेसी-403807एफ), 04 सितम्बर 2005

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 13686382एन अब जेसी-403808के), 04 सितम्बर 2005

हवलदार हरी सिंह (सं. 13686379एन अब जेसी-403809एम), 04 सितम्बर 2005

हवलदार परमजीत चन्द (सं. 13687569एम अब जेसी-403810एफ), 01 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मीर सफी अहमद (सं. 13688346एफ अब जेसी-403811के), 14 सितम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दालिम चन्द्र नाथ (सं. 13683983एच अब जेसी-403812एम), 18 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मी शंकर पान्डे (सं. 13688585डब्ल्यू अब जेसी-403813पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार प्रमोद कुमार साहू (सं. 13688677एच अब जेसी-403814एक्स), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार रंजीत कुजूर (सं. 13687787एल अब जेसी-403815ए), 14 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 13685736वाई अब जेसी-403816एच), 01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार हरि ओम सिंह (सं. 13688182डब्ल्यू अब जेसी-403817एल), 01 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार धाम सिंह (सं. 13682684एच अब जेसी-403819डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार दीवान सिंह रावल (सं. 13682949एफ अब जेसी-403820एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार मोहन स्वरूप (सं. 13687770एक्स अब जेसी-403821एन), 14 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13685399पी अब जेसी-403822डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005*

हवलदार मोती सिंह (सं. 13681762पी अब जेसी-403823वाई), 18 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 13683910एफ अब जेसी-403824एफ), 18 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार उमेश सिंह तोमर (सं. 13688796वाई अब जेसी-403825के), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 13687630एल अब जेसी-403826एम),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार सोहन लाल (सं. 13687686एक्स अब जेसी-403827पी),
15 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश जात (सं. 13689051एक्स अब
जेसी-403828एक्स), 05 अक्टूबर 2005

हवलदार दिलीप कुमार (सं. 13683660एल अब जेसी-403829ए),
08 अक्टूबर 2005

हवलदार रंग राव (सं. 13685151एल अब जेसी-403830पी),
08 अक्टूबर 2005

हवलदार हन्स राज सिंह (सं. 13686183ए अब जेसी-403831एक्स),
08 अक्टूबर 2005

हवलदार सफिकुर रहमान (सं. 13686302एल अब जेसी-403832ए),
09 अक्टूबर 2005

हवलदार नारायण सिया (सं. 13684979एक्स अब जेसी-403833एच),
21 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश शाही (सं. 13686765ए अब जेसी-403834एल),
19 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुखबीर (सं. 13688468एल अब जेसी-403835एन),
01 नवम्बर 2005

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 13688244एल अब जेसी-403837वाई),
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) सुशील कुमार मंडल (सं. 13686526एल अब
जेसी-403570पी), 01 जून 2004

हवलदार (क्लर्क) रामजीत प्रसाद (सं. 13686563वाई अब
जेसी-403818एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार (क्लर्क) सन्तोष कुमार सिंह (सं. 13686892पी अब
जेसी-403836डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार नरेन्द्रा कुमार (जेसी-239396पी), 21 मार्च 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अंजद प्रसाद उपाध्याय (जेसी-239785पी), 02 जुलाई
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार छेदा लाल (जेसी-239841एच), 12 जुलाई 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार घनश्याम सिंह राजपूत (जेसी-238763के), 20 अगस्त
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मुन्ना लाल पांरहार (जेसी-240171वाई), 08 जून
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजिन्दर कुमार (जेसी-240526वाई), 22 अगस्त
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रणधीर सिंह (जेसी-239771पी), 17 अगस्त 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गजराज सिंह (जेसी-240111के), 18 अगस्त 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बजरंग सिंह (जेसी-239767डब्ल्यू), 31 अगस्त
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार काशी राम सिंह (जेसी-239799पी), 02 अगस्त 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मोहिन्दर (जेसी-240228एच), 28 दिसम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमेश चन्द्र (जेसी-239062ए), 28 जुलाई 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

- नायब रिसालदार सुभाष चन्द्र (जेसी-238843एफ), 28 जुलाई 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार बच्चा लाल वर्मा (जेसी-239555एफ), 29 जुलाई 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-240232एल), 13 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार कन्हैया प्रसाद सिंह (जेसी-239800वाई), 29 जुलाई 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार जो सेन्तारमराई कन्नन (जेसी-240192पी), 25 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार जाबर सिंह (जेसी-238163एफ), 17 जुलाई 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार अमरीक सिंह (जेसी-240028एम), 31 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार सुभाष सिंह (जेसी-239444के), 03 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार शंकर लाल मीना (जेसी-239469डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005
नायब रिसालदार रोहताश सिंह (जेसी-239198के), 06 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार मोहन सिंह (जेसी-239562एक्स), 28 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार शामलन ए (जेसी-239406एन), 08 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार जय पाल (जेसी-240179एल), 29 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार अशोक कुमार त्रिपाठी (जेसी-240269एम), 10 अक्टूबर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार हरविन्दर सिंह (जेसी-239106एम), 01 अगस्त 2005*
नायब रिसालदार बजरंग लाल नेहरा (जेसी-239944एफ), 30 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार बुर सिंह (जेसी-239225एच), 20 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार रणवीर सिंह (जेसी-239030के), 11 अगस्त 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार जीवन सिंह (जेसी-239344वाई), 07 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार हीरा राम जाट (जेसी-239421एच), 01 सितम्बर 2005*
नायब रिसालदार जयगोपाल सिंह (जेसी-240274एक्स), 01 सितम्बर 2005*
नायब रिसालदार पुरन सिंह (जेसी-239466एच), 01 सितम्बर 2005*
नायब रिसालदार गुरचरण सिंह (जेसी-239424डब्ल्यू), 11 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार बलराज सिंह मनहास (जेसी-239347एम), 07 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार बिशन दास (जेसी-239201वाई), 04 अक्टूबर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार काशिद शशिकांत एकनाथ (जेसी-239501ए), 27 सितम्बर 2005*
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रवीन्द्रन नायर पी एस (जेसी-240135एन),
17 सितम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मन्ना राम चौधरी (जेसी-239972एन), 04 अक्टूबर
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
06 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामेन्द्र सिंह (जेसी-239076ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब रिसालदार कनक बासक (जेसी-240287पी), 15 अक्टूबर
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मेहर सिंह (जेसी-240453एक्स), 01 अक्टूबर 2005*

नायब रिसालदार सुमेश चन्द्रा (जेसी-239874एन), 01 अक्टूबर 2005*

नायब रिसालदार समय सिंह (जेसी-239584डब्ल्यू), 20 अक्टूबर
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जितेन्द्रा सिंह (जेसी-239148वाई), 01 अक्टूबर
2005*

नायब रिसालदार अशोक कुमार (जेसी-239472डब्ल्यू), 04 अक्टूबर
2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सत्य राम (जेसी-239748एफ), 12 अक्टूबर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चन्द राम (जेसी-240245एच), 04 अक्टूबर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धर्म पाल (जेसी-240289ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब रिसालदार रमेश चन्द (जेसी-239586एफ), 20 अक्टूबर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कामता नन्द झा (जेसी-240051ए), 01 नवम्बर 2005

नायब रिसालदार कमल देव (जेसी-239682डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब रिसालदार सुरता राम (जेसी-239708ए), 02 नवम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

इन्फैन्ट्री

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बल राम (14911267एफ अब जेसी-420407एल),
19 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

हवलदार रघुवीर सिंह (14905107एल अब जेसी-420408एन),
07 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र धारी शर्मा (14902846एम अब जेसी-420409डब्ल्यू),
06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार काना राम गोदारा (14904653एम अब जेसी-420410एल),
22 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द (14912394एच अब जेसी-420411एन),
23 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार युगनाम लोकेन सिंह (14906011पी अब
जेसी-420412डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार पुरन सिंह (14907218एफ अब जेसी-420413वाई),
27 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार सतीस कुमार (14909329एक्स अब जेसी-420414एफ),
08 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार विजेन्द्र सिंह (14904959एन अब जेसी-420415के),
22 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार रणजीत सिंह (14909721एक्स अब जेसी-420416एम),
28 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मनोहरन टी पी (14910435एच अब जेसी-420417पी),
19 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द (14908772वाई अब जेसी-420418एक्स),
19 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार मदन सिंह (14909395ए अब जेसी-420419ए), 01 दिसम्बर
2005*

हवलदार राम दर्शन शुक्ला (14905316एच अब जेसी-420420पी),
01 दिसम्बर 2005*

हवलदार स्वराजजीत लाल गोस्वामी (14905733पी अब
जेसी-420421एक्स), 01 दिसम्बर 2005*

हवलदार सूरजित सिंह (14909902एच अब जेसी-420422ए), 19
दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

जोश थोमस
अवर सचिव

सं. 224, दिनांक 3 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार लाल सिंह (जेसी-212978एल), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार लाल सिंह (जेसी-173900एफ), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-192932वाई), 01 अक्टूबर 2005

सूबेदार नत्थू राम (जेसी-182076वाई), 01 अक्टूबर 2005

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार महावीर सिंह गिल (जेसी-169667एफ), 01 अप्रैल
2005

नायब सूबेदार फतेह राम (जेसी-478499एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-185188के), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-205139एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार चन्द्र भूषण सिंह (जेसी-184240पी), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-185190एफ), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार करन सिंह (जेसी-211555एल), 12 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-194625ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार नन्द लाल (जेसी-518744डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कुंजा बिहारी सिंघा (जेसी-548253पी), 01 अक्टूबर
2005

नायब सूबेदार नित्यानन्द स्वर्णकार (जेसी-747907एल), 01 अक्टूबर
2005

नायब सूबेदार जोगिन्दर पाल (जेसी-192721डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2005

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-218061के), 01 अक्टूबर 2005

स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार नन्द लाल (जेसी-156832एच), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार भरत सिंह (जेसी-187633डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार अंग्रेज सिंह (जेसी-203844एल), 01 जनवरी 2006

सूबेदार केसर सिंह (जेसी-183055पी), 01 जनवरी 2006

स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार हरनाम सिंह, एस सी (जेसी-132937एन), 01 अप्रैल
2001

नायब सूबेदार प्रेम लाल (जेसी-174509डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार शिव राम (जेसी-840802एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मल्ला सिंह (जेसी-840803डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सत्या रंजन दास (जेसी-840792पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-840804वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्रा भट्ट (जेसी-199324ए), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार बिशन सिंह बिष्ट (जेसी-204147एक्स), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार नारायण दत्त बस्तीयाल (जेसी-528078के), 01 दिसम्बर
2005

नायब सूबेदार चन्द्रा पाल (जेसी-412173एक्स), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह रावत (जेसी-528471एम), 01 जनवरी
2006

नायब सूबेदार नन्दा प्रसाद पुन (जेसी-612089एफ), 01 जनवरी 2006

सेना डाक सेवा कोर

वारंट आफिसर/हवलदार (क्लर्क) से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)

डब्ल्यूओ हरी शंकर पटेल (सं. 8371262डब्ल्यू अब जेसी-834508एक्स), 27 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ वेद प्रकाश (सं. 8371629एल अब जेसी-834509ए), 30 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ श्याम सुन्दर प्रसाद (सं. 8372132ए अब जेसी-834510पी), 18 दिसम्बर 2004*

डब्ल्यूओ शमीम अख्तर (सं. 8372328एन अब जेसी-834511एक्स), 28 मार्च 2005*

डब्ल्यूओ नेगी सुमन सिंह जगत सिंह (सं. 8373506एक्स अब जेसी-834512ए), 06 दिसम्बर 2004*

डब्ल्यूओ एस मनिकंदन (सं. 8373664एम अब जेसी-834513एच), 22 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ श्याम सुन्दर महाराणा (सं. 8373725वाई अब जेसी-834514एल), 25 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ चेतन आनंद (सं. 8373728एम अब जेसी-834515एन), 29 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ जितेन्द्र सिंह रनाकान्त सिंह (सं. 8373736एल अब जेसी-834516डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ योगेश्वर लाल धनेन्द्रा (सं. 8373820एल अब जेसी-834517वाई), 17 दिसम्बर 2004*

डब्ल्यूओ मोहम्मद लुत्फी अली (सं. 8373845एक्स अब जेसी-834518एफ), 05 अप्रैल 2005*

डब्ल्यूओ प्रकाश राम (सं. 8373846ए अब जेसी-834519के), 13 दिसम्बर 2004*

डब्ल्यूओ कुलकर्णी पंकज बालाजी (सं. 8373983वाई अब जेसी-834520वाई), 22 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ प्रताप फतू मलिक (सं. 8374030एच अब जेसी-834521एफ), 17 दिसम्बर 2004*

डब्ल्यूओ के पी प्रदीप (सं. 8374356वाई अब जेसी-834522के), 08 फरवरी 2005*

डब्ल्यूओ महावीर सिंह (सं. 8374628एन अब जेसी-834523एम), 05 जनवरी 2005*

डब्ल्यूओ घुले विलास (सं. 8374888वाई अब जेसी-834524पी), 14 फरवरी 2005*

डब्ल्यूओ गुहिपति नागेश्वरा राव (सं. 8375362वाई अब जेसी-834525एक्स), 05 जनवरी 2005*

डब्ल्यूओ एच एम नागाराजू (सं. 8375382एम अब जेसी-834526ए), 27 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ शिवा कुमार एस (सं. 8375384एक्स अब जेसी-834527एच), 27 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ जगदीप श्योरन (सं. 8375388एन अब जेसी-834528एल), 29 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ वीराराघवय्याह थुम्माला (सं. 8375389डब्ल्यू अब जेसी-834529एन), 29 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ संजय दुबे (सं. 8375441एन अब जेसी-834530एच), 27 नवम्बर 2004*

डब्ल्यूओ सुनील कुमार वैरागी (सं. 8375452ए अब जेसी-834531एल), 25 नवम्बर 2004*

*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

डब्ल्यूओ जय शंकर झा (सं. 8371638एम अब जेसी-834532एन), 27 अक्टूबर 2004**

डब्ल्यूओ इंद्र नाथ झा (सं. 8373687एन अब जेसी-834533डब्ल्यू), 04 जनवरी 2005**

** (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) सूबेदार (सं. 8430656पी अब जेसी-834534वाई), 01 नवम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क) रवीन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 8430106एम अब जेसी-834535एफ), 03 दिसम्बर 2004#

हवलदार (क्लर्क) विनय कुमार (सं. 8430444के अब जेसी-834536के), 01 जनवरी 2005#

(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

टि. के. एम. पिल्लै
अवर सचिव

सं. 225, दिनांक 5 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
पायनियर कोर

नायब सूबेदार (जी डी/क्लर्क) के रैंक में

हवलदार जी डी जनक सिंह, एस सी (8032514एच अब जेसी-829326ए), 13 मई 2005*

हवलदार जी डी बलेन्द्र प्रसाद पाल (8029787ए अब जेसी-829331एल), 16 मई 2005**

हवलदार जी डी ओम प्रकाश शर्मा (8028593एल अब जेसी-829333डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार जी डी सुरेन्द्र पाल (8029005वाई अब जेसी-829334वाई), 03 जुलाई 2005@

हवलदार जी डी आशा राम (8029102डब्ल्यू अब जेसी-829335एफ),
01 जुलाई 2005

हवलदार जी डी सूरज पाल सिंह (8029111एक्स अब जेसी-
829336के), 01 जुलाई 2005

हवलदार जी डी नरिनदर सिंह (8028606एक्स अब जेसी-829338पी),
01 सितम्बर 2005

हवलदार जी डी मो अक्तरुद्दीन मजुमदार (802950एल अब जेसी-
829341पी), 07 अक्टूबर 2005\$

हवलदार जी डी अशोक कुमार एस (8031525एच अब जेसी-
829342एक्स), 21 नवम्बर 2005^

हवलदार जी डी ओम प्रकाश मिश्रा (8028264पी अब जेसी-
829343ए), 21 नवम्बर 2005^

हवलदार जी डी राजबीर (8029182वाई अब जेसी-829345एल),
18 नवम्बर 2005^

हवलदार जी डी रमेश चन्द्र (8029420ए अब जेसी-829346एन),
22 नवम्बर 2005^

हवलदार (क्लर्क) बिनोद कुमार मंडल (8031952वाई अब जेसी-
829332एन), 10 जून 2005#

हवलदार (क्लर्क) महेश चन्द्र (8029494पी अब जेसी-829340एम),
01 सितम्बर 2005

*(वरिष्ठता 19 मार्च 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
अगले दिन से जिस दिन आर्मी कमांडर उत्तरी कमान ने असांविधिक
शिकायत पर निवारण दिया)

** (वरिष्ठता 01 मई 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

@ (वरिष्ठता 01 जुलाई 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

\$ (वरिष्ठता 05 सितम्बर 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना)

^ (वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना)

(वरिष्ठता 01 जून 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार मदन सुरेश एन (सं. 15365460वाई अब जेसी-376251डब्ल्यू),
22 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जाधव संजय व्ही (सं. 15360262एल अब जेसी-376253एफ),
01 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एम पी कौशिक (सं. 15363405एल अब जेसी-376254के),
01 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार कृष्ण गोपाल (सं. 15381797एम अब जेसी-376255एम),
12 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एस गोपालामूर्थी (सं. 15382283एफ अब जेसी-376257एक्स),
17 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ई वी रमना (सं. 15369426एक्स अब जेसी-376258ए),
03 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार ए मुरुगन (सं. 15375164एच अब जेसी-376259एच),
01 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रबीन्द्र कुमार नायक (सं. 15382347एफ अब
जेसी-376260एक्स), 15 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार समुन्दर सिंह (सं. 15382515पी अब जेसी-376262एच),
01 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एन्थोनी पी (सं. 15384970डब्ल्यू अब जेसी-376263एल),
09 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार के राजागोपाल (सं. 15377706ए अब जेसी-376264एन),
18 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार राजकुमार (सं. 14256519एच अब जेसी-376231एच),
01 सितम्बर 2005

हवलदार बनमाली नायक (सं. 14256952एम अब जेसी-376265डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार थोरट अशोक रामभाउ (सं. 14253344ए अब जेसी-376266वाई),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार जे एस प्रसाद रमन (सं. 14257109वाई अब जेसी-376267एफ),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार दिनेश कुमार (सं. 14257201एक्स अब जेसी-376268के),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार शिव कुमार (सं. 14250006एक्स अब जेसी-376270एफ),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार देशमुख विजय के (सं. 14255004डब्ल्यू अब जेसी-376272एम),
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

हवलदार धर्मपाल (सं. 14255342एन अब जेसी-375858डब्ल्यू), 07
मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

हवलदार एम रफीक (सं. 14254463एच अब जेसी-375924एन),
01 अप्रैल 2005

हवलदार व्ही एस प्रसाद (सं. 14256680एक्स अब जेसी-375926वाई),
01 अप्रैल 2005

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 14255113एच अब जेसी-375940एल),
01 अप्रैल 2005

हवलदार एच के पांडेय (सं. 14250244के अब जेसी-375944एफ),
01 अप्रैल 2005

हवलदार पी आर देव चन्द (सं. 14259178एन अब
जेसी-376110एफ), 11 जुलाई 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश चन्द्र (सं. 14256385पी अब जेसी-376232एल),
01 सितम्बर 2005

हवलदार टी सी मंडल (सं. 14260966के अब जेसी-376273पी),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार श्री राम (सं. 14260994डब्ल्यू अब जेसी-376274एक्स),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार शशी कान्त ओझा (सं. 14260986एक्स अब
जेसी-376275ए), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार राम कृष्ण (सं. 14258473के अब जेसी-376235वाई),
01 सितम्बर 2005

हवलदार सुन्दरसन के जी (सं. 14258303ए अब जेसी-376276एच),
04 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14258489पी अब जेसी-376277एल),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार विक्रम सिंह रावत (सं. 14258305एल अब जेसी-
376278एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार राम अनुज तिवारी (सं. 14258320ए अब जेसी-
376279डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार रघुबीर (सं. 14258497एन अब जेसी-376280एल),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार नमोनारायण मिश्रा (सं. 14258566वाई अब जेसी-
376281एन), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार अरविन्द सिंह (सं. 14240584वाई अब जेसी-376218वाई),
03 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रामचन्द्र सरोज (सं. 14250424एम अब जेसी-376175पी),
02 जुलाई 2005

हवलदार जे के पाठक (सं. 14246886एफ अब जेसी-376197एन),
01 अगस्त 2005

हवलदार प्रेमा मधु एस (सं. 14243676डब्ल्यू अब जेसी-
376203डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 14247339वाई अब जेसी-376204वाई),
13 अगस्त 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अगस्त 2005 से दी जायेगी)

हवलदार रक्षपाल (सं. 14247831के अब जेसी-376205एफ),
01 अगस्त 2005

हवलदार नफे सिंह (सं. 14248257एच अब जेसी-376212एक्स),
01 अगस्त 2005

हवलदार एस के इशाक अलि (सं. 14247718पी अब जेसी-
376236एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार सुभाष सिंह (सं. 14232639एच अब जेसी-376244ए),
01 सितम्बर 2005

हवलदार गरीबे लाल (सं. 14234100एक्स अब जेसी-376245एच),
01 सितम्बर 2005

हवलदार व्ही काथिर वेलु (सं. 14250022पी अब जेसी-376284एफ),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 14250367डब्ल्यू अब जेसी-376286एम),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14234356ए अब जेसी-376287पी),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार पलविन्दर सिंह (सं. 14250181एम अब जेसी-376289ए),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार तेज कुमार (सं. 14250895ए अब जेसी-376290पी),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार अजीत सिंह (सं. 14251219एक्स अब जेसी-376292ए),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार बलवीर गिरि (सं. 14251040के अब जेसी-376293एच),
03 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार राम किशन (सं. 14248995एम अब जेसी-376295एन),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार जापान सिंह (सं. 14235374पी अब जेसी-376296डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार आर सी चौबे (सं. 14248941एल अब जेसी-376297वाई),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार ओम कंवर (सं. 14250403डब्ल्यू अब जेसी-376298एफ),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार दिल बाग (सं. 14250884एन अब जेसी-376299के),
01 अक्टूबर 2005

हवलदार रमेश प्रसाद गुप्ता (सं. 14248958वाई अब
जेसी-376300एन), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार गुरदीप सिंह (सं. 14248038एफ अब जेसी-376301डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2005

सेना वायु रक्षा कोर

सब्सर्टेंटिव सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार सी मुर्ती (जेसी-296075डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार विजय सिंह (जेसी-297041पी), 16 दिसम्बर 2005/01
दिसम्बर 2005*

सूबेदार महेंदर सिंह (जेसी-297051वाई), 01 फरवरी 2006

सब्सर्टेंटिव सूबेदार मेजर (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

सूबेदार बस्ती राम (जेसी-296673एन), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी
2006*

सूबेदार रामपाल सिंह (जेसी-296777पी), 01 फरवरी 2006

सब्सर्टेंटिव सूबेदार मेजर (ए.आई.जी.) के पद में

सूबेदार वर्की एम वी (जेसी-296084एक्स), 01 दिसम्बर 2005

सब्सर्टेंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-298679एन), 05 अक्टूबर
2005/20 जुलाई 2005*

नायब सूबेदार मो जाहिद अली (जेसी-297952एल), 17 सितम्बर
2005/01 अगस्त 2005*

नायब सूबेदार सत्यनारायन सिंह (जेसी-298278वाई), 18 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार रथीश कुमार पी (जेसी-298644एक्स), 25 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005*

नायब सूबेदार प्रसन्ना कुमार आर (जेसी-298322एक्स), 12 अक्टूबर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार रामेश्वर प्रसाद (जेसी-298624के), 08 दिसम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार रविंद्र एन के (जेसी-298773एक्स), 22 नवम्बर
2005/06 अक्टूबर 2005*

नायब सूबेदार एस शंभुगम (जेसी-298071वाई), 13 जनवरी 2006/
11 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार मोहन चंद्र दास (जेसी-298364के), 25 नवम्बर
2005/14 नवम्बर 2005*

नायब सूबेदार जगन्नाथ पाल (जेसी-298175ए), 13 जनवरी 2006/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार शल्लोराम (जेसी-298379एम), 06 दिसम्बर 2005/
01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह रावत (जेसी-298618डब्ल्यू), 27 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार शिवजी राम मीना (जेसी-298302के), 13 जनवरी
2006/22 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार नरेश चंद्र (जेसी-297843वाई), 04 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार भागवत सिंह पटेल (जेसी-298176एच), 01 जनवरी
2006

नायब सूबेदार श्री नारायण मंडल (जेसी-298299पी), 06 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-298230एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार निपेन गोगोई (जेसी-298426वाई), 08 जनवरी 2006/
01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार खगेन चंद्र शर्मा (जेसी-298371एल), 01 फरवरी 2006

सब्सर्टेंटिव सूबेदार (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार सरोज कुमार राय (जेसी-298751वाई), 01 जनवरी
2006

नायब सूबेदार जी मुंदिप कुमार (जेसी-298752एफ), 28 जनवरी
2006/01 जनवरी 2006*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-298753के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार वीर भीमराव (जेसी-298758एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार शीजू एलेक्स (जेसी-298759एल), 04 फरवरी 2006/
01 फरवरी 2006*

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार मनी राम (जेसी-297662एन), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार बृज किशोर पंत (जेसी-297685पी), 01 फरवरी 2006
 नायब सूबेदार दोस्त मोहम्मद (जेसी-297663डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

सब्सटेंटिव सूबेदार (एस.के.टि.) के पद में

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-298009एम), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सब्सटेंटिव सूबेदार (धर्मशिक्षक) के पद में

नायब सूबेदार श्री कृष्णकांत उपाध्याय (जेसी-296360पी), 10 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार गिरजाकांत शुक्ला (जेसी-296362ए), 05 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र मिश्रा (जेसी-296363एच), 13 फरवरी 2006/13 जनवरी 2006*

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एस.पी. शर्मा
 अवर सचिव

सं. 226, दिनांक 03 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

सेना पुलिस कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र पाल शर्मा (जेसी-818315एन), 07 सितम्बर 2005%

सूबेदार हरि ओम सिंह (जेसी-818319के), 05 अक्टूबर 2005@

%सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।

@सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार नरिसेट्टी राघव राव (जेसी-818758पी), 10 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार गड लाल (जेसी-818770डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2005@

नायब सूबेदार रामा शंकर शर्मा (जेसी-818771वाई), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार अभे सिंह (जेसी-818772एफ), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार प्रभात कुमार भारती (जेसी-818773के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-818774एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राकेश (जेसी-818775पी), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-818776एक्स), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार एम डी (जेसी-818777ए), 16 नवम्बर 2005@

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-818779एल), 03 अक्टूबर 2005@

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-818782एल), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सैल विलास सखा राम (जेसी-818783एन), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजनाथ यादव (जेसी-818784डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार जे अमल राज (जेसी-818785वाई), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार भागीरथ सिंह (जेसी-818786एफ), 02 नवम्बर 2005#

नायब सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-818787के), 03 नवम्बर 2005#

नायब सूबेदार मनोज कुमार विश्वास (जेसी-818788एम), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार दरबारा सिंह नैन (जेसी-818790के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार अशोक नाथ त्रिपाठी (जेसी-818792पी), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजा गोपालन के (जेसी-818793एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सूरत सिंह (जेसी-818794ए), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रेम बल्लभ पाण्डेय (जेसी-818795एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-818797एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार नवरंग लाल जाट (जेसी-818798डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह वर्मा (जेसी-818799वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार विनोद नन्द राय (जेसी-818803डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2005\$

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जायेगी।

@सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।

#सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी।

\$सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार शिव दास (जेसी-818548पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार गुज कुमार सिंह (जेसी-818549एक्स), 01 दिसम्बर 2005

दिवाकर
 अवर सचिव

सं. 227, दिनांक 04 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना
 सेना शिक्षा कोर
 सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार विजय पाल सिंह (जेसी-213368एल), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार रामवीर सिंह सेंगर (जेसी-214293एल), 01 दिसम्बर 2005

सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-214294एन), 01 दिसम्बर 2005
 सूबेदार राम सिंह दलाल (जेसी-214295डब्ल्यू), 15 दिसम्बर 2005 *
 *सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी।

सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-216181के), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-216994ए), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार अनिल कुमार मेहता (जेसी-216186एच), 01 जनवरी 2005@
 @सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी।

सूबेदार देवी सिंह (जेसी-216212वाई), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार ठाकुर सिंह (जेसी-225470ए), 01 जनवरी 2006
 सूबेदार कल्याण सिंह (जेसी-217156एक्स), 01 जनवरी 2006

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-802909वाई), 01 मई 2005 *
 *सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 मार्च 2005 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार यशवंत सिंह (जेसी-802929एम), 03 मई 2005=
 नायब सूबेदार अवधेश मिश्र (जेसी-802930एफ), 03 मई 2005=
 =सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 मई 2005 से दी जाएगी।

नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-802940एल), 13 जून 2005+
 +सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2005 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार यादव (जेसी-802943वाई), 01 अगस्त
 2005×

नायब सूबेदार उमेश बाबू (जेसी-802947पी), 19 अगस्त 2005×
 नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-802948एक्स), 27 जुलाई 2005×
 नायब सूबेदार कैलाश बिहारी द्विवेदी (जेसी-802950पी), 20 अगस्त
 2005×

नायब सूबेदार जय दत्त (जेसी-802952ए), 20 जुलाई 2005×
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-802951एक्स), 27 जुलाई 2005×
 ×सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
 जुलाई 2005 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार राम शंकर शुक्ल (जेसी-802956डब्ल्यू), 14 अगस्त
 2005:

नायब सूबेदार सज्जन कुमार बूरा (जेसी-802958एफ), 01 अगस्त
 2005:

नायब सूबेदार सैयद खलीक अहमद (जेसी-802959के), 01 अगस्त
 2005:

नायब सूबेदार रमाकान्त मिश्र (जेसी-802960वाई), 03 अगस्त 2005:

नायब सूबेदार राम लखन द्विवेदी (जेसी-802961एफ), 02 सितम्बर
 2005:

:सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2005 से दी जायेगी।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह कनवासी (जेसी-802963एम), 01 सितम्बर
 2005

नायब सूबेदार जोगेन्द्र सिंह (जेसी-802967एच), 01 सितम्बर 2005

विजय
 अवर सचिव

सं. 228, दिनांक 10.4.06--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों
 की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कोमोडोर (व समकक्ष) से सर्जन रियर एडमिरल (व समकक्ष)
 रैंक में

वी.एस. दीक्षित (एम आर 03548 डब्लू) (75150), 05.09.05 वेतन
 व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.07.05 से दी जाती है।

सर्जन कमाण्डर (व समकक्ष) से सर्जन कैप्टन (व समकक्ष) रैंक में

1. बी सुदर्शन (एम. आर. 04702-डब्लू) (75328) 29.11.04 वेतन
 व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.06.04 से दी जाती है।

2. एस. सचदेवा (एम. आर. 03876-के) (75240) 4.8.05 वेतन व
 पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.01.05 से दी जाती है।

3. गिरीश गुप्ता (एम. आर. 05267-वाई) (75445) 28.01.05 वेतन
 व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23.01.05 से दी जाती है।

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि.से. (का.)

सं. 229, दिनांक 10 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों
 को सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर से ले कर्नल

आईसी सं. नाम, आर्म

54607 आनंद कुमार, एएडी

54609 दीपक उपरेती, इन्फैन्ट्री

54610 विक्रम भान, इन्फैन्ट्री

54612 जयदीप वाली, इन्फैन्ट्री

54613 एस भागोत्रा, इंजीनियर्स

54614 तरजीत सिंह केरोन, इन्फैन्ट्री

54616 जी विजय भास्कर रेड्डी, सिगनल्स

54617 सुरेन्द्र कुमार यादव, ए एस सी

- 54618 सुर्यावीर सिंह सिसोदिया, ए एस सी
 54619 संजीव मलिक, आर्टि
 54620 आनंत विजय शाही, ए सी
 54621 श्री कृष्णा वी, इन्फैन्ट्री
 54623 आर श्रीधरन, इंजीनियर्स
 54624 देवेश सिंह ए ओ सी
 54627 निरंजन राजकुमार झाखर, इन्फैन्ट्री
 54628 एस जोशी, ए वी एन
 54629 वी बाला गनेशन, आर्टि
 54631 राजीव विष्णु सावंत, इन्फैन्ट्री
 54633 अनिल सीताराम लावन्द, ए एस सी
 54635 सनदीप सेन, इन्फैन्ट्री
 54636 के के नायर, इन्फैन्ट्री
 54637 किशन सिंह झाला, ए एस सी
 54639 अमरजीत सिंह सन्धु, ए ओ सी
 54640 उदय वीर सिंह, ए एस सी
 54641 एस वाई शिंदे, इन्फैन्ट्री
 54642 मनोज हांडा, ए एस सी
 54643 एच एस खोखर, ए ए डी
 54645 के दीनाकर, इन्फैन्ट्री
 54646 के बालाजी, ए सी
 54647 एम राजीव मैनन, इन्फैन्ट्री
 54648 सन्तोष कुमार अवस्थी, ए ओ सी
 54649 मनीष मारवाह, आर्टि
 54650 बिशनु राम, आर्टि
 54652 चेतन गुरबक्स, ए सी
 54653 गुरविन्दर सिंह, ईण्ट
 54654 बी एस काशीद, इन्फैन्ट्री
 54655 कपिल शर्मा, ए एस सी
 54656 सुनील कुमार झा, ए एस सी
 54657 हरविन्दर सिंह गिल, ए ओ सी
 54658 आर बी चौधरी, इन्फैन्ट्री
 54659 इ ए जोहनसन, इन्फैन्ट्री
 54660 वी जयन, इन्फैन्ट्री
 54661 जी आर के सेशा साई, ई एम ई
 54662 मनोज कुमार, ए ए डी
 54663 आर कौल, इन्फैन्ट्री
 54664 समीर काकेर, ए ओ सी
 54665 संजय भारती, ए ओ सी
 54666 शाम बिहारी सिंह यादव, इन्फैन्ट्री
 54667 सन्दीप कुमार, ई एम ई
 54668 पी टी राजीव, इन्फैन्ट्री
 54669 राजेश सिंह, ए एस सी
 54670 सुधीर चेंगप्पा, ए ओ सी
 54671 सन्दीप भाटिया, ए एस सी
 54672 बिपुल चन्द्रनाथ, इन्फैन्ट्री
 54673 संजीव धोंडियाल, ए ओ सी
 54675 मनोज गौड़, इंजीनियर्स
 54676 थोडगाराम उमासंकर, ए ओ सी
 54678 क्वाजिम रजा हेदरी, ए एस सी
 54679 अमिताभ दत्ता, इंजीनियर्स
 54680 किशोर कुमार गवारी, ए ओ सी
 54681 सचिन्द्रा शर्मा, ए एस सी
 54682 जसवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 54683 राकेश आर्या, ए एस सी
 54684 संजय सिंह, इंजीनियर्स
 54685 अरविन्द पुरी, इन्फैन्ट्री
 54686 रूपिन्दर जीत सिंह, आर्टि
 54687 अजय पाहूजा, आर्टि
 54688 विशु भटनागर, आर्टि
 54692 मनीश पुरी, ए एस सी
 54693 धरमिन्दर सिंह पटयाल, इन्फैन्ट्री
 54694 मोहम्मद अली दुबे, इंजीनियर्स
 54695 एस चन्द्र, ए सी
 54696 अरिन्दम हैन्दीक्यु, इंजीनियर्स
 54697 विनोद कुमार यादव, ए ओ सी
 54698 राजेश्वर परमार, इन्फैन्ट्री
 54699 कनवरदीप सिंह, ए ए डी
 54700 अरविन्द कुमार अवस्थी, इंजीनियर्स
 54701 श्रीधर वासुदेवन, ए सी

| | |
|---|---|
| 54703 जी कुमार, ए एस सी | कप्तान से मेजर |
| 54704 अरुन नय्यर, ए एस सी | आई सी, नाम, आर्म |
| 54705 नीतिन शर्मा, ए ओ सी | सं. |
| 54707 मनीश अरोरा, इन्फैन्ट्री | 59056 क्षितिज बलहारा, इन्फैन्ट्री |
| 54708 भानू मिश्रा, इण्ट | 59057 परमेन्द्र के मलिक, ए सी |
| 54709 मनीश कुमार, इंजीनियर | 59060 सोभाग्य नायक, ए ए डी |
| 54710 के सेनधिलनाथन, ई एम ई | 59062 राजेश आर्य, ए एस सी |
| 54711 अनचल भाऊखन्डी, इन्फैन्ट्री | 59063 सलीम एजाज, आर्टी |
| 54712 सामरदीप सिंह, इंजीनियर्स | 59065 रितेश कटोच, इन्फैन्ट्री |
| 54713 दिनेश कुमार शर्मा, ए एस सी | 59066 मोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 54714 संजय दीक्षित, इंजीनियर्स | 59067 हेमंत सिंह पोवार, इन्फैन्ट्री |
| 54715 गौरव मिश्रा, इंजीनियर्स | 59068 एस सत्यामूर्ति, ए ओ सी |
| 54716 अरुण सूद, ए सी | 59069 मानव यादव, ए सी |
| 54717 गुलशन चड्ढा, इन्फैन्ट्री | 59070 सरफराज सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 54718 जोसफ शाओन, इन्फैन्ट्री | 59072 संजय शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 54719 आर सिवा कुमार, ए एस सी | 59073 जगदीप सिंह छटवाल, आर्टी |
| 54720 एम के एस राघव, इण्ट | 59074 उमंग गंडोत्रा, आर्टी |
| 54721 बापत केदार जगन्नाथ, इन्फैन्ट्री | 59075 सुखाकर ठाकुर, इन्फैन्ट्री |
| 54722 अमित आनंद पाण्डेय, आर्टी | 59076 इन्दर प्रीत सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 54723 अजय आनन्द बोराई, इन्फैन्ट्री | 59078 हिमांशु खुलबे, आर्टी |
| 54724 क्रिस्टोकर सीडी सिल्वा, ए एस सी | 59079 शुभांकर सेन गुप्ता, मैक |
| 54725 विनोद भट्ट, इंजीनियर्स | 59080 प्रदीप सेमवाल, इन्फैन्ट्री |
| 54726 राजा माजी, ए ओ सी | 59081 बेद प्रसाद घुंगाना, आर्टी |
| 54728 पोरअयाथ राजनारायन, इन्फैन्ट्री | 59082 हरपिन्दर सिंह ढिल्लों, इन्फैन्ट्री |
| 54729 सन्दीप तेजपाल, ए ए डी | 59083 जय सिंह सेखावत, ए ए डी |
| 54730 आलोक राज, ए ओ सी | 59084, विवेक मुदगिल, ईन्ट |
| 54731 अलबर्ट सुम्मेरबरयावल, इन्फैन्ट्री | 59088 विजय कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 54732 मनोज कुमार आर, ए एस सी | 59089 आशीश अनिल जोशी, इन्फैन्ट्री |
| 54733 मनोज कुमार सिरोही, ए सी | 59090 अक्षत सूर्यवंशी, आर्टी |
| 54737 अलोक श्रीवास्तवा, ए एस सी | 59092 पुरापिन्दर सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री |
| 54738 भरत जोशी, ए एस सी | 59093 विक्रम जीत सिंह पंडेर, इन्फैन्ट्री |
| 54739 रजनीश सालधी, ए सी | 59094 एम बी थिमैया, ए एस सी |
| 54740 चरन देव सिंह, इन्फैन्ट्री | 59095 कुमार आनन्द, इन्फैन्ट्री |
| | 59097 खान शगफ़ शुजा, इन्फैन्ट्री |
| | 59098 आदित्य सिंह, इन्फैन्ट्री |
| | 59100 शैलेंद्र शर्मा, इन्फैन्ट्री |

| | |
|---|---|
| 59101 कुरकुरे अमित विनायक, आर्टी | 59155 अनुपम जोशी, आर्टी |
| 59103 सुशील कुमार राना, आर्टी | 59156 शैलेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 59105 राजीव साहारा, इन्फैन्ट्री | 59157 बेथना बैलि जगनन धान सिंह, आर्टी |
| 59106 मनोज कुमार सिंह, आर्टी | 59158 रोहित त्यागी, एसी |
| 59107 आशुतोष शर्मा, आर्टी | 59159 मनीश पार्थसारथी, इन्फैन्ट्री |
| 59108 अवनीश रावत, मैक | 59161 सन्दीप कुमार, एएससी |
| 59113 निशांत शेटी, इन्फैन्ट्री | 59162 अक्षय यादव, मैक |
| 59117 सुमन मजुमदार, ए ए डी | 59163 अनील सरोत्रा, इन्फैन्ट्री |
| 59118 रुचिर शेटी, ए ए डी | 59164 विशाल बब्बर, एओसी |
| 59120 विनय पाल सिंह, ए ए डी | 59165 एम अर्जुन रंजन, आर्टी |
| 59121 अरनब सरकार, ए सी | 59167 तुषार गोपाल कुमथेकर, इन्फैन्ट्री |
| 59123 धेकाने सन्तोष सुभाष, आर्टी | 59168 अमरदीप सिंह हुडा, इन्फैन्ट्री |
| 59124 राहुल मिश्रा, इन्फैन्ट्री | 59169 माधव एन आव्यंगर, इन्फैन्ट्री |
| 59125 जगन्नाथ प्रसाद बारिक, मैक | 59170 राजेश जगलान, आर्टी |
| 59127 खांडगे ह्यिकेष, इन्फैन्ट्री | 59171 राजीव शंकर, एएससी |
| 59129 बी वी सत बिजय बालाराम, ए ए डी | 59173 नितिन सिंह साम्बयाल, आर्टी |
| 59131 श्रोत सिंह, इन्फैन्ट्री | 59174 मनोज कुमार जोशी, एएडी |
| 59132 अमर अत्री, ए एस सी | 59175 शुभांकर घोशाल, इन्फैन्ट्री |
| 59133 वारघडे शिवाजी भागवंत, इन्फैन्ट्री | 59177 पारितोष उपाध्याय, एओसी |
| 59136 प्रदीप सिंह कार्की, इन्फैन्ट्री | 59178 गायकवाड़ केदार विजय, आर्टी |
| 59137 आलोक श्रीवास्तव, एसी | 59180 श्रीरंग एस मूले, इन्फैन्ट्री |
| 59138 अनिमेष जतरामा, इन्फैन्ट्री | 59182 ओम प्रकाश मिश्रा, इन्फैन्ट्री |
| 59139 रणधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री | 59183 सुधीर चमोली, इन्फैन्ट्री |
| 59141 रोहित रावत, इन्फैन्ट्री | 59185 मनोज के, ए सी |
| 59142 रंजीत सिंह पवार, एओसी | 59186 शिवानन्द अलियास शिवावस्पा, आर्टी |
| 59144 पी अलेक्जेंडर, इन्फैन्ट्री | 59187 अशविनी मिश्रा, एएडी |
| 59146 के सुधाकर, इन्फैन्ट्री | 59188 सोनम भारद्वाज, एओसी |
| 59147 जुबिन सिद्दिकी, एएससी | 59190 एस सिंह, इन्ट |
| 59148 सुरेश कुमार सिंह, आर्टी | 59191 शिवराज आनन्द मोरे दलवी, आर्टी |
| 59149 रजत शर्मा, एसी | 59192 सन्दीप सिंह रंधावा, एएससी |
| 59151 संदीप शर्मा, एओसी | 59193 विनोद कुमार शिवरान, मैक |
| 59152 पराग चौहान, आर्टी | 59194 विभाकर त्यागी, आर्टी |
| 59153 अमनदीप सिंह, एएडी | 59197 सुमीत वशिष्ठ, इन्जीनियर्स |
| 59154 फनजौबम सननदा सिंह, इन्फैन्ट्री | 59198 प्रदीप कुमार सेनगुप्ता, इन्फैन्ट्री |

| | |
|--|-------------------------------------|
| 59199 अक्षय बुधाराजा, इन्फैन्ट्री | 59254 पियूष कुमार सिंह, आर्टी |
| 59201 निशांत सानवाल, इन्फैन्ट्री | 59255 अनिल कुमार फोगट, मैक |
| 59202 अतुल देवली, इन्फैन्ट्री | 59256 अजय ठाकुर, इन्फैन्ट्री |
| 59203 राजीव थॉमस, इन्फैन्ट्री | 59257 अभिषेक तलवार, एएससी |
| 59204 फैजान जहूर, इन्फैन्ट्री | 59262 विनय, इन्फैन्ट्री |
| 59205 साल्वेकर सन्दीप सोमनाथ, आर्टी | 59263 दिनेश रघु रामन, इन्फैन्ट्री |
| 59206 गिरीश चन्द्र पाण्डे, इन्फैन्ट्री | 59264 शुरंगशु चौधरी, आर्टी |
| 59207 अंबरीश राय, आर्टी | 59265 बलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 59208 भास्कर तोमर, इन्फैन्ट्री | 59266 कमल भारद्वाज, एएससी |
| 59210 मनु धनकर, एसी | 59267 तुषाल मित्तल, इन्फैन्ट्री |
| 59213 विशाल पटानिया, एएससी | 59268 शैलेन्द्र सिंह, इन्ट |
| 59214 अभिजीत दास, एएससी | 59269 रमन कुमार मिश्रा, आर्टी |
| 59216 इन्दर जीत सिंह, एएडी | 59271 अशोक कुमार मौर्य, आर्टी |
| 59218 गुन्जेश शर्मा, एसी | 59272 अरिन्दम चौधरी, एएडी |
| 59219 सुमित शेरोन, इन्ट | 59273 अनूप सिंह यादव, एएससी |
| 59221 भूपिन्दर मेहरा, आर्टी | 59274 परदीप दहिया, इन्फैन्ट्री |
| 59223 प्रमोद कुमार यादव, मैक | 59275 अजय कुमार सिंह, आर्टी |
| 59226 विनीत लोहिया, इन्फैन्ट्री | 59277 करम राजा सिंह, आर्टी |
| 59227 सचिन गहलावत, आर्टी | 59278 अशवनी कुमार श्रीवास्तव, आर्टी |
| 59228 बारिदा बारान पटनायक, एएडी | 59279 अनुपम शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 59229 ओमवीर पवार, इन्फैन्ट्री | 59280 अतुल घई, एएडी |
| 59230 अमित, इन्फैन्ट्री | 59281 पंकज शर्मा, आर्टी |
| 59233 प्रशांत सिंह रकवाल, आर्टी | 59284 सुमीत सामयाल, इन्फैन्ट्री |
| 59234 देव कुमार पवार, इन्फैन्ट्री | 59286 अजय पंडित, इन्फैन्ट्री |
| 59236 गोरव सिरौही, इन्फैन्ट्री | 59288 राजीव नयन सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 59239 भूषण पारिख, इन्फैन्ट्री | 59289 मनीष प्रियदर्शन, इन्फैन्ट्री |
| 59240 मयंक सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री | 59291 संजय कुमार झा, आर्टी |
| 59242 अजय कुमार पाठक, आर्टी | 59292 ब्रजेश नेलवाल, एएससी |
| 59243 एस पिन्टो सिंह, ईएमई | 59293 गगनदीप सिंह, आर्टी |
| 59247 प्रफुल श्रीवास्तव, एएडी | 59294 मयूर अम्बास्था, मैक |
| 59248 जायस के जोसफ, इन्फैन्ट्री | 59295 एस हरिहर, इन्फैन्ट्री |
| 59249 प्रमोद रावत, इन्फैन्ट्री | 59296 निखिल आप्टे, आर्टी |
| 59250 मनुजेन्द्र सिंह, एसी | 59298 बबिन कुमार, इन्फैन्ट्री |
| 59253 जसप्रीत सिंह चहल, इन्फैन्ट्री | 59299 वी अशोक कुमार, इन्फैन्ट्री |

| | |
|--|---|
| 59302 जयंत सिंह, एसी | 59346 श्रीनिवासन वी, एएडी |
| 59303 एन चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री | 59348 अमित बेदी, इन्फैन्ट्री |
| 59305 विशाल आनन्द, एओसी | 59350 विकास शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 59306 मोहिन्दर किशोर केसर, इन्फैन्ट्री | 59351 अन्तोनी हेनरी सेलवम, आर्टी |
| 59307 सन्दीप सिंह औलख, आर्टी | 59352 सौरव पाति, आर्टी |
| 59309 अजय सहगल, आर्टी | 59353 रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 59311 विक्रम, आर्टी | 59354 जयप्रकाश लाम्बा, मैक |
| 59312 राहुल सक्सेना, आर्टी | 59355 रजिथ आर उन्नी, इण्ट |
| 59313 विवेक एस बादवे, एसी | 59356 परविन्दर सिंह, आर्टी |
| 59314 बिरेन्द्र नाथ चटर्जी, आर्टी | 59357 अरिन्दम परूथी, इन्फैन्ट्री |
| 59315 अमरजीत चौधरी, एएससी | 59360 अंजन कुमार हलदर, इन्फैन्ट्री |
| 59316 हेमन्त कुमार, एएडी | 59361 विवेक प्रकाश, एसी |
| 59317 दीपक सिसोदिया, एओसी | 59362 किशन सिंह रावत, एएससी |
| 59318 वल्लनूरु शिवा सेशा साई, एएससी | 59363 भान्जा किशोर प्रधान, इन्फैन्ट्री |
| 59320 प्रदीप कुमार तक्षक, इन्फैन्ट्री | 59364 विजय वीर सिंह दहिया, इन्फैन्ट्री |
| 59321 मृदुल भाटिया, इन्ट | 59365 रोशन कुमार, आर्टी |
| 59322 रंजन देवरानी, इन्फैन्ट्री | 59366 मनीष थापा, मैक |
| 59323 अनिल कुमार चढ़्ढा, आर्टी | 59367 विकास गुप्ता, एएडी |
| 59324 कृष्णा विश्वकर्मा, इन्फैन्ट्री | 59371 मानस कुमार महापात्रा, इन्फैन्ट्री |
| 59326 हिमांशु, आर्टी | 59372 अरुण ममगाई, इन्फैन्ट्री |
| 59328 राजकुमार श्याम सिंह, इन्फैन्ट्री | 59374 विक्रम सराल, एओसी |
| 59329 देव मोहन, इन्फैन्ट्री | 59375 मानन कन्डारी, एओसी |
| 59330 विक्रम बीर वेसवेट, एएससी | 59376 दिनेश छुफाल, इन्फैन्ट्री |
| 59332 अजय बाला कृष्णन, इन्फैन्ट्री | 59377 अनिल शंकर राव गायकवाड, आर्टी |
| 59333 गोर्की चन्दोला, मैक | 59379 अरुण सिंह, एएससी |
| 59334 अनूप संमोत्रा, इन्फैन्ट्री | 59381 गौरव सेठी, आर्टी |
| 59336 सुधीर टोकस, इन्फैन्ट्री | 59383 सन्दीप मुखर्जी, इन्फैन्ट्री |
| 59337 बी विजय कुमार, इन्फैन्ट्री | 59385 गौरव भाटिया, आर्टी |
| 59338 नीरज, इन्फैन्ट्री | 59386 मनीष श्रीवास्तव, एओसी |
| 59339 तुशार कथूरिया, आर्टी | 59388 राकेश चन्द्र भरतवाल, इन्फैन्ट्री |
| 59340 आनन्द सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री | 59389 पवन बंकल, एएससी |
| 59342 मुदित आर्य, आर्टी | 59391 लोकेश देवा, इन्फैन्ट्री |
| 59344 मनोज कुमार हुडा, एसी | 59392 हरमन जीत सिंह गिल, इन्फैन्ट्री |
| 59345 विवेक सिवाच, इन्फैन्ट्री | 59393 अजय पठानिया, इन्फैन्ट्री |

| | |
|--|--|
| 59394 विरेन्द्र कुमार राय, इन्फैन्ट्री | 59443 विक्रान्त पंछाल, एओसी |
| 59397 रविन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री | 59445 देशपाण्डे अनिरुधा सुधाकर, एएडी |
| 59398 आशुतोष कुमार, आर्टी | 59448 अमित कुमार, आर्टी |
| 59400 काने श्रीरंग सुवास, आर्टी | 59449 विनायक शर्मा, मैक |
| 59401 जीतेन्द्र कुमार मोहपात्रो, एएडी | 59450 अमूल्य प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 59402 मोहित प्रकाश, एओसी | 59451 अभिजीत कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री |
| 59403 मेहर पराधित, एएससी | 59452 मनोज सांगवान, इन्फैन्ट्री |
| 59404 कुलवंत सिंह मलिक, इन्फैन्ट्री | 59453 विकास मेहता, एएससी |
| 59407 अमित रे, आर्टी | 59454 मनीष पाण्डे, एसी |
| 59408 अनूप कुमार, एओसी | 59455 दिवाकर कुमार, एएससी |
| 59409 विनय आहुजा, एएससी | 59456 भारत सिंह रावत, इन्फैन्ट्री |
| 59410 अंगद रेयर, आर्टी | 59457 सोमेश कुमार दास, इन्फैन्ट्री |
| 59411 तेजिन्द्र पाल सिंह हुंडाल, इन्फैन्ट्री | 59458 देव कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री |
| 59412 मनीष पाठक, एसी | 59459 अमित रंजन बाजपेई, इंजीनियर्स |
| 59414 जजोत गुरुदेव भैया, एएटी | 59460 प्रशांत शर्मा, इन्फैन्ट्री |
| 59415 सुदेश भांगरा, इन्फैन्ट्री | 59461 मुधांगी वाघसी प्रशांत, इन्फैन्ट्री |
| 59417 अमित कुमार, इन्फैन्ट्री | 59462 रोहित अश्वनि, आर्टी |
| 59418 मोहित बदोनी, एओसी | 59463 नितिन उपाध्याय, एएडी |
| 59419 नवीन सिंह, इन्फैन्ट्री | 59465 अजय कुमार पुंडकर, एओसी |
| 59421 धीरज कुमार, इन्फैन्ट्री | 59467 नवीन खरे, एसी |
| 59423 समीर डी वाकांकर, आर्टी | 59468 जे नवीन कुमार, आर्टी |
| 59424 राजेन्द्र, आर्टी | 59469 कुलदीप सिंह, एएडी |
| 59425 सतिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री | 59470 मनोज एपी, इन्फैन्ट्री |
| 59426 विनय सिंह, मैक | 59472 सुमित बंसल, एओसी |
| 59427 आकाश पाण्डे, एसी | 59474 मोहम्मद अदिल तबरेज, आर्टी |
| 59428 मुजममिल अहमद, इन्फैन्ट्री | 59475 रजत टंडन, आर्टी |
| 59429 भागवत अनंत अशोक, आर्टी | 59478 बलबीर झा, इन्फैन्ट्री |
| 59430 अमित कुमार सिंघल, इन्ट | 59479 उपजीत सिंह रंधावा, इन्फैन्ट्री |
| 59431 मयंक गुप्ता, एओसी | 59480 पार्था सारथी सिंघा, एओसी |
| 59432 राकेश कुमार, इन्फैन्ट्री | 59481 मनीष कोठारी, इंजीनियर्स |
| 59434 कौशिक मिश्रा, आर्टी | 59482 मोहित नायल, मैक |
| 59435 राहुल पुरी, एएससी | 59484 पंकज सुब्बा, इन्फैन्ट्री |
| 59440 देशपाण्डे विष्णु कुमार, इन्फैन्ट्री | 59485 पुष्पम कुमार, इन्फैन्ट्री |
| 59441 यादव अनिल पुनवासी, इन्फैन्ट्री | 59488 नवीन जोशुआ पोनसोवी, इन्फैन्ट्री |

59489 अल्फर्ड फर्नाडिज, एएडी

59490 सौरभ चैटर्जी, एसी

59491 नितिन थापा, इन्फैन्ट्री

59492 निर्मल कुमार दुबे, आर्टी

59493 राहुल नायर, आर्टी

59494 अनिल कुमार, आर्टी

59495 अमन ग्रेवाल, आर्टी

59497 राधा कृष्णनन कुराली, इन्फैन्ट्री

59498 राजीव यादव, एएससी

59499 अनुज प्रकाश गुप्ता, एएडी

59500 अजय तोमर, इन्फैन्ट्री

59501 यादविन्दर कुमार पुरी, इन्फैन्ट्री

59502 अजमेर सिंह छिब, इन्फैन्ट्री

59503 रनवीर सिंह ढोंगरा, इन्फैन्ट्री

59504 विशाल सन्नी, आर्टी

59505 अनुराग सिंह सेनगर, इन्फैन्ट्री

59507 रितेश कुमार सिंह, एएससी

59509 संजीव दवेदी, एएडी

59510 जयवीर सिंह, इन्फैन्ट्री

59511 अतुल शर्मा, आर्टी

59512 पुष्पेन्दु मिश्रा, आर्टी

59514 कुलदीप सिंह मट्टे, मैक

59515 शरद शर्मा, इन्फैन्ट्री

59516 संजय नायर, इन्फैन्ट्री

59518 सतद इनायत कबीर, एसी

59519 एस जी सुधांसु सेखर, आर्टी

59520 समीर कुमार सिंह, एएडी

59522 आशीश अग्रवाल, एओसी

59523 रजनीश कुमार माही, आर्टी

59525 बिश्वाजीत राय, एएससी

59527 शशी कान्त छिमवाल, इण्ट

59528 मनमीत सिंह बिज्जन, इन्फैन्ट्री

59529 अभिशोक मिश्रा, इन्फैन्ट्री

59530 अबीर दत्ता, आर्टी

61961 शेलके महेश सरजीराव, सिग्नल्स

61962 अरुण सेखर, ईएमई

61963 नारायण एम टी, इन्जीनियर्स

61964 रविन्दर यादव, सिग्नल्स

61965 प्रमोद पानिकर, इन्जीनियर्स

61966 रुशीकेश धोत्रे, इन्जीनियर्स

61969 अभिशोक त्यागी, इन्जीनियर्स

61970 वसिष्ठ जी आर, इन्जीनियर्स

61971 अविनाश देश कुलकर्णी, ईएमई

61972 सन्तोष राय, ईएमई

61973 जयंत कानूनगो, इन्जीनियर्स

61974 चिनमय गिरिश पारिख, ईएमई

61975 जितेन्द्र रावत, ईएमई

61976 रमीत सिंह, ईएमई

61977 सचिन चोपड़ा, ईएमई

61978 हरकेश कुमार, इन्जीनियर्स

61979 विकास कुमार गुप्ता, इन्जीनियर्स

61980 कुमार अमितेन्द्रम, इन्जीनियर्स

61981 विवेक शर्मा, इन्जीनियर्स

61982 अमनप्रीत सिंह, ईएमई

61983 नीरव तुली, इन्जीनियर्स

61984 आदित्य मुरारी इन्दोरिया, ईएमई

61985 मन्द मन्दीप सिंह, सिग्नल्स

61986 अनमोल फ्रांसिस कंडीर, इन्जीनियर्स

61988 राजीव कुमार सिंह, ईएमई

61989 राना करण सिंह, इन्जीनियर्स

61990 राजेश गुप्ता, ईएमई

61991 परिक्षित मेहरा राजकुमार, सिग्नल्स

61992 हरकीरत सिंह, इन्जीनियर्स

61993 के सुरेश सेल्वा कुमार, सिग्नल्स

61995 सालियन प्रशांत सदाशिव, सिग्नल्स

--11 दिसम्बर 2005

61996 शिवाकुमार बी, सिग्नल्स

61997 राहुल शशिकांत केलकर, ईएमई

--12 दिसम्बर 2005

अजय गोयल,
उप निदेशक
एम एस 8 सी

सं. 230, दिनांक 5 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

नाम, आई सी, आर्म, लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

मेजर जनरल भोपिंदर सिंह, ए वी एस एम, वी एस एम, (आई सी-16289), इन्फ., 11 मई 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27 नवम्बर 2001 से दी जाएगी।

मेजर जनरल ए एस बहिया, ए वी एस एम, (आई सी-17576), इन्फ., 30 जनवरी 2004

मेजर जनरल बलबीर सिंह, बी एस एम, (आई सी-17587), इन्फ., 29 जून 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल देवराज सिंह, ए वी एस एम, (आई सी-17594), इन्फ., 29 जून 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एम सी भंडारी, ए वी एस एम, (आई सी-17615), इन्फ., 03 अगस्त 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल दीपक कपूर, एस एम, वी एस एम (आई सी-17622), आर्टी (जी सी), 29 जून 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल के के खन्ना, ए वी एस एम (आई सी-17640), इन्फ., 29 जून 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल दलजीत सिंह, वी एस एम (आई सी-17644), ए सी, 01 जुलाई 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल अशोक कपूर, बी एस एम (आई सी-17699), इन्फ., 01 अगस्त 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एम जी गिरिश, (आई सी-17214), ई एम ई, 01 जुलाई 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल मदन गोपाल, ए वी एस एम, 01 मार्च 2004

मेजर जनरल के एस जामवाल, ए वी एस एम, वी एस एम, (आई सी-19001), आर्टी (जी सी), 01 अगस्त 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जून 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल ओ पी नन्द्राजोग, वी एस एम (आई सी-19002), इन्फ., 01 सितम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 30 जून 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एम जी दत्तार, वी एस एम (आई सी-16591), सिग्स, 30 जून 2004।

मेजर जनरल टी ए डिकुना (आई सी-16309), ए ओ सी, 30 जून 2004।

मेजर जनरल एच एस लीडर, यू वाई एस एम वाई एस एम, वी एस एम (आई सी-19009), इन्फ., 01 अक्टूबर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल पी के सिंह, ए वी एस एम (आई सी-19050), आर्टी (जी सी), 01 दिसम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल एम एल नायडू, वाई एस एम (आई सी-19077), राजपूत, 01 दिसम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

मेजर जनरल सुशील गुप्ता, ए वी एस एम वाई एस एम (आई सी-19080), जैक रिफ, 01 दिसम्बर 2004

आई सी-17239 मेजर जनरल बी एस धालीवाल, ए वी एस एम, वी एस एम, इंजीनियर, 01 जनवरी 2005

आई सी-17631 मेजर जनरल अशोक वासुदेवा, ए वी एस एम, वी एस एम, आर्टी, 01 जनवरी 2005

आई सी-19393 मेजर जनरल के डी एस शेखावत, वी एस एम, आर्टी, (जी सी), 01 जनवरी 2005

आई सी-19004 मेजर जनरल ए एस बाजवा, ए वी एस एम, वी एस एम, आर्टी, 01 फरवरी 2005

आई सी-19407 मेजर जनरल एस के दहिया, ए एस सी, 01 फरवरी 2005

आई सी-19410 मेजर जनरल मोहन पाण्डे, वी एस एम, माहार, 01 अक्टूबर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19429 मेजर जनरल जेड यू शाह एस एम, वी एस एम, आर्टी, (जी सी), 01 अक्टूबर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19440 मेजर जनरल सुधीर शर्मा, ए वी एस एम, वाई एस एम, वी एस एम, गार्ड, 01 मार्च 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19510 मेजर जनरल सी बी विजन आर्टी, (जी सी), 01 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19550 मेजर जनरल आर के मेहता, ए वी एस एम, वाई एस एस, वी एस एम, पारा 04 फरवरी 2005

आई सी-19834 मेजर जनरल एच एस पनाग, ए वी एस एम, मैक इन्फैन्ट्री, 25 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 04 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19038 मेजर जनरल के एस राव, एस सी, एस.एम, इन्जीनियर, 25 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 19 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19845 मेजर जनरल डी एन देगाई, वी एस एम, आमर्ड, 01 मार्च 2005

आई सी-19848 मेजर जनरल थोमस मैथ्यू राजपूत, 25 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19860 मेजर जनरल मनधाता सिंह, वाई एस एम 9 जी आर, 25 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19868 मेजर जनरल एस एस डिल्लन, ए वी एस. एम, वी एस एम, ग्रेनेडियर्स, 25 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जून 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19873 मेजर जनरल पी आर गंगाधरन, ए वी एस एम, वी ए एम*, मराठा लाई, 25 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17 जून 2005 से दी जाएगी।

आई सी-19853 मेजर जनरल अरविन्द महाजन, ए वी एस एम, वी एस एम*, ई एम ई, 25 अगस्त 2005

आई सी-17759 मेजर जनरल डी डी एस संधु, ए ओ सी, 06 सितम्बर 2005

एन के फुकन
ए एम एस (एम एस) (एक्स)

वायु शाखा

सं. 231, दिनांक 10 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
मौसम विज्ञान शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में :--

सी पी रनदेव (12566) मौ. वि., 01 फरवरी 2005

प्रशासनिक शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में :--

जे ए साठे (12996) प्रशा, 01 अक्टूबर 2004

टी के रथ (13220) प्रशा, 01 मार्च 2005

के एन वी नायर (13082) प्रशा, 24 मई 2005

वैमानिक इंजीनियर शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में :--

एच वी बंसल (12578) वै.ई.(यां), 24 फरवरी 2005

आर कुमार (12813) वै.ई.(यां), 01 अप्रैल 2005

एम एम चतुर्वेदी (13313) वै.ई.(वै.), 01 अप्रैल 2005

पी मेहरोत्रा (13316) वै.ई.(यां), 01 अप्रैल 2005

पी धरमानी (13490) वै.ई.(वै.), 01 अप्रैल 2005

आर पदमानाभन (13475) वै.ई.(वै.), 01 अप्रैल 2005

एस एस गुनाशेखर (13487) वै.ई.(यां), 01 अप्रैल 2005

वी के तिवारी (13198) वै.ई.(वै.), 01 अप्रैल 2005

एस आर गोपालाकृष्णन (13464) वै.ई.(वै.), 01 अप्रैल 2005

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

टी के बिस्वास (14146) वै.ई.(वै.), 01 जून 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस के शर्मा (14815) वै.ई.(वै.) और एम के श्रीवास्तव (15111) वै.ई.(वै.) के बीच में आयेगा]

एस वी पाठक (15104) वै.ई.(वै.), 17 जून 2004/01 जून 2004 (नौ. से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एम के श्रीवास्तव (15111) वै.ई.(वै.) और एम आर धीर (15267) वै.ई.(वै.) के बीच में आयेगा]

पी के एस प्रसाद (15257) वै.ई.(यां), 03 जून 2004/01 जून 2004 (नौ. से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन सी एस शर्मा (15290) वै.ई.(यां) और बी पी एस चीमा (15494) वै.ई.(यां) के बीच में आयेगा]

एस मुखोपाध्याय (15654) वै.ई.(वै.), 01 अगस्त 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन आर शर्मा (15646) वै.ई.(यां) और एस गुलाटी (15835) वै.ई.(यां) के बीच में आयेगा]

एस एस मेहदी (15832) वै.ई.(यां), 01 अगस्त 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन डी एम कुंदथी (15821) वै.ई.(यां) और आर जया प्रसाद (15825) वै.ई.(वै.) के बीच में आयेगा]

ए के घोष (15965) वै.ई.(यां), 01 नवम्बर 2004

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एन स्वेन (15961) वै.ई.(वै.) और जी राय (15969) वै.ई.(यां) के बीच में आयेगा]

संभारिकी शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

- पी के गुप्ता (14058) संभा, 01 नवम्बर 2004
 एस के अरोड़ा (14505) संभा, 01 नवम्बर 2004
 आर एस सहरावत (14511) संभा, 01 मार्च 2005
 एस अग्रवाल (14957) संभा, 01 सितम्बर 2005

उड़ान शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

- के पाठक (15715) उ.पा, 01 अप्रैल 2003/13 जनवरी 2003 (नौ.से.)
 [इनका नाम ग्रुप कैप्टन सी बाली (15708) उ.पा और एच के जे एस सोखे (15858) उ.पा के बीच में आयेगा]
 सी सुब्रमनियम (रिटायर्ड) (16089) उ.पा, 01 नवम्बर 2003
 [इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस छाबड़ा (16032) उ.पा के ऊपर आयेगा]

लेखा शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में :--

- आर एम दानक (16461) लेखा, 17 अप्रैल 2002/01 अगस्त 2001 (नौ.से.)
 एम एस शैक (16865) लेखा, 01 अगस्त 2001
 आर बी एस रेड्डी (16866) लेखा, 01 अगस्त 2001
 एन पी एस डालमी (16872) लेखा, 10 दिसम्बर 2001
 वी एस गीरिधर (16875) लेखा, 26 मार्च 2002/10 दिसम्बर 2001 (नौ.से.)
 आई एस खर्ब (16877) लेखा, 10 दिसम्बर 2001
 ई पी पद्माराज नाम्बियार (16886) लेखा, 28 जनवरी 2002

प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में :--

- पी कुलश्रेष्ठ (रिटायर्ड) (16431), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 एस नायर (16644), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 जे एस नायल (रिटायर्ड) (16648) प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 एस जैकब (16652), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 ए. लुथर (16657), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 आर. एल सिंगल (16843), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 एस के वर्मा (16845), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 आर शर्मा (16847), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 के. पी. शर्मा (16851), प्रशा., 01 नवम्बर 2003
 एम. ए. श्रीधर (17027), प्रशा., 01 नवम्बर 2003

टी. पी. हरिप्रसाद (रिटायर्ड) (17036), प्रशा., 01 फरवरी 2004

एन के शर्मा (17038), प्रशा., 01 मार्च 2004

आर कपूर (17039), प्रशा., 01 अप्रैल 2004

एस आर बरधान (17055), प्रशा., 01 अप्रैल 2004

एस. के. मलिक (17056), प्रशा., 01 मई 2004

वी. के. तिवारी (17058), प्रशा., 01 मई 2004

एम. के. बोस (रिटायर्ड) (17062), प्रशा., 01 जून 2004

ए.के. बोत्रे (17063), प्रशा., 01 जून 2004

एम. के. चिटगुपी (17195), प्रशा., 01 जुलाई 2004

एस राय चौधरी (17196), प्रशा., 01 जुलाई 2004

बी. एस. चिल्लर (17197), प्रशा., 01 अगस्त 2004

डी विक्टर (17198), प्रशा., 01 अगस्त 2004

ए सरीन (17199), प्रशा., 01 अक्टूबर 2004

एन कृष्णमूर्ती (17203), प्रशा., 01 अक्टूबर 2004

के नारायणन (17204), प्रशा., 01 अक्टूबर 2004

एम के दिक्षित (17205), प्रशा., 01 अक्टूबर 2004

एन एस वैद्य (17208), प्रशा., 01 नवम्बर 2004

के गोपालाकृष्ण (17211), प्रशा., 01 नवम्बर 2004

आर. एस. मेहता (17212), प्रशा., 01 नवम्बर 2004

के. सी. कलिता (16622), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

एस जोहरी (17213), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

पी पांडे (17218), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

एस बी वलवादाकर (17222), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

ए. एस. नेगी (17226), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

पी के बापत (17227), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

बी एस सब्रवाल (17374), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

एन. एस. टप्रियल (17376), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

आर सूद (17378), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

एस शुक्ला (17379), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

के शाह (17380), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

ओ. एस कृष्ण (17381), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

आई. एस. एस. राजु (रिटायर्ड) (17389), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

एम मोहन्ता (17390), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

आर. एस. मेहन्दिरत्ता (17394), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004

के. वी. शंकर,
संयुक्त निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

सं. 232, दिनांक 10 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उडान पायलट शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर रैंक में

डी. एस. बावा (22956), 18 जून 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव,
विंग कमाण्डर
जे.डी.पी.ओ. 3(डी)

सं. 233, दिनांक 03 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्री ओ.पी. ग्रोवर की अधिर्वाप्तिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 28 फरवरी, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

जी. विजयराघवन,
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 234, दिनांक 10 अप्रैल 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64 के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है। अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा उनकी आयु 40 वर्ष होने तक, दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाये।

नियमित सेना

अल्प सेवा आयोग

नाम, एस.एस. सं., आर्म/सर्विस और सेवा मुक्ति की तिथि

अनूप भट्ट (एसएस-35582के), एओसी, 05 मार्च 2003

सुरेन्द्र सिंह (एसएस-35709एफ), एओसी, 20 अगस्त 2003

भूपेन्द्र सिंह राठौर (एसएस-35725वाई), इंफैंट्री, 20 अगस्त 2003

संदीप सिंह (एसएस-36485वाई), सिग्नल्स, 12 जनवरी 2003

सुमित कुमार उत्रेति (एसएस-36649के), आर्टी, 18 मार्च 2003

कर्ण सिंह (एसएस-36652के), आर्टी, 31 जुलाई 2003

अमिय कान्ता पान्ढा (एसएस-36934एच), आर्टी, 17 जनवरी 2003

रंजीत श्रीनिवास मंडूके (एसएस-37051एल), ईएमई, 04 सितम्बर

2002

मनबीर सिंह दिल्ली (एसएस-37254पी), एसी, 20 जून 2003

देवबंस सिंह सिद्धू (एसएस-37268पी), आर्टी, 06मार्च 2003

मयुर ललिथ राज (एसएस-37324एच), एडी. आर्टी, 06मार्च 2003

मयंक वत्स (एसएस-37326एन), आर्टी, 06मार्च 2003

के. रामप्रसाद (एसएस-37329एफ), इंफैंट्री, 06मार्च 2003

नवीन कुमार कंसल (एसएस-37338एच), ईएमई, 06 मार्च 2003

विजय मुखर्जी (एसएस-37345वाई), आर्टी, 06 मार्च 2003

गुरबीर सिंह दिल्ली (एसएस-37481पी), आर्टी, 01 सितम्बर 2003

समीर कपूर (एसएस-37491वाई), आर्टी, 01 सितम्बर 2003

मनीष शर्मा (एसएस-37524वाई), इंट, 01 सितम्बर 2003

भट्ट संजय कन्हैयालाल (एसएस-37562पी), इंजीनियर्स, 01 सितम्बर 2003

मनीष जुगल (एसएस-37584एन), सिग्नल्स, 30 दिसम्बर 2003

एम.एल.एन. श्रवण कुमार
कर्नल
कर्नल एमएस-7

थल सेना शाखा

सं. 235, दिनांक 10 अप्रैल 2006--निम्नलिखित अधिकारियों को एस.जी.सी.एम. द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

नियमित सेना
स्थाई कमीशन

मेजर एच. एस. ओलाख, (आईसी-43824), एससी

(अ) बेईज्जती के साथ सेवा से बर्खास्तगी

(ब) बर्खास्तगी के समय उसके सभी बकाया वेतन एवं भत्ते और सार्वजनिक धन जो उसके देय हों को जब्त कर लिया जाए।

--15 दिसम्बर 2003

निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

कैप्टन प्रीति सिंह (डब्ल्यू एस-0089), ई.एम.ई.

सेवा से बर्खास्तगी (आर्मी एक्ट, सेक्शन-19 एवं आर्मी रूल 14 के अन्तर्गत), भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या सी/10602701 एससी/298/एजी/डीवी-2/2541/डी(एजी) दिनांक 03 अगस्त 2004।

--03 अगस्त 2004--

निम्नलिखित अधिकारियों को जी.सी.एम. द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

कैप्टन बी. रहमान हुसैन (आईसी-54208), ए.एस.सी.

(अ) सेवा से बर्खास्त किया जाए।

--17 अप्रैल 2005--

अजय गोयल
उप. निदेशक, एमएस 8 सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th April 2006

No. 216, dated 3rd April 2006.—The President is pleased to appoint Shri Ranjit Issar, IAS (HY: 72), formerly Additional Secretary, Ministry of Defence, as Special Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence by temporarily upgrading the post as a measure personal to him w.e.f. 28.02.2006 (FN) to 07.03.2006 (AN).

The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Dhand, CSS, Under Secretary, Department of Secondary & Higher Education as Additional Private Secretary to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Rao Inderjit Singh) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- w.e.f. 1st February, 2006 (FN) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint the following CSS officers of the Ministry of Defence to the Grade I of the CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 01.07.1997 (SL-1997), until further orders:—

Name & Designation and Date of initial appointment as US (in-situ/ad-hoc basis) .

Shri Saheli Ghosh Roy, 24.12.1997 (FN)

Shri Roshan Lal Kapoor, 02.09.1994 (FN)

Shri N C Gaur, 28.09.1998 (FN)

Shri Chand Kumar, 30.09.1998 (FN)

Shri M K Roy 08.10.1998 (FN)

Shri J K Jain, 30.09.1998 (FN)

2. The above appointments are deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.1997 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were/are so appointed to the post of Under Secretary.

3. The above appointments of the officers are further subject to the final decision of the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri RK Ojha and Ms. Preeti Srivastava Union of India & Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

4. Option for fixation of pay under FR-22 may please be sent to this section within one month of issue of this Notification.

The President is pleased to appoint the following CSS officers of the Ministry of Defence to the Grade I of the CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 01.07.1998 (SL-1998), until further orders:—

Name & Designation, Date of initial appointment as US (in-situ/ad-hoc basis) and Remarks

Shri Sanjay Rath, 27.08.1998 (FN), Resigned

Shri Diwakar, 12.10.1998 (FN)

Shri R. Rajagopal, 28.09.1998 (FN)

Shri S. N. Haldar, 16.11.1998 (FN)

Shri F K Pande, 23.10.1998 (FN)

Shri O B Chakarvati, 26.10.1998 (FN)

2. The above appointments are deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.1998 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were/are so appointed to the post of Under Secretary.

3. The above appointments of the officers are further subject to the final decision of the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri RK Ojha and Ms. Preeti Srivastava Union of India & Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

4. Option for fixation of pay under FR-22 may please be sent to this section within one month of issue of this Notification.

The President is pleased to appoint the following CSS officers of the Ministry of Defence to the Grade I of the CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 01.07.1999 (SL-1999), until further orders:—

Name & Designation and Date of initial appointment as US (in-situ/ad-hoc basis) .

Shri V. K. Jain, 28.09.1998 (FN)

Shri G. P. Haldar, 05.10.1998 (FN)

Shri V K Bhatia, 26.09.1998 (FN)

Shri K K Sil, 28.09.1998 (FN)

2. The above appointments are deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.1999 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were/are so appointed to the post of Under Secretary.

3. The above appointments of the officers are further subject to the final decision of the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri RK Ojha and Ms. Preeti Srivastava Union of India & Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

4. Option for fixation of pay under FR-22 may please be sent to this section within one month of issue of this Notification.

The President is pleased to appoint the following CSS officers of the Ministry of Defence to the Grade I of the CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 01.07.2000 (SL-2000), until further orders:—

Name & Designation and Date of initial appointment as US (in-situ/ad-hoc basis) .

Shri MR Beerh, 20.12.1996 (FN)

Shri Murlidhar Bhatia, 28.09.1998 (FN)

Shri VK Luthra, 28.09.1998 (FN)

Shri HG Syal, 30.09.1998 (FN)

2. The above appointments are deemed to have been made effective w.e.f. 01.07.2000 for the purpose of approved service and for fixation of pay as Under Secretary on a notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officers were/are so appointed to the post of Under Secretary.

3. The above appointments of the officers are further subject to the final decision of the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri RK Ojha and Ms. Preeti Srivastava Union of India & Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

4. Option for fixation of pay under FR-22 may please be sent to this section within one month of issue of this Notification.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

No. 217, dated 3rd April 2006.—The President is pleased to appoint Shri S. R. Parasher, CSS, on transfer from the, Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions to Grade I of the CSS, Under Secretary (Adhoc) in the Ministry of Defence w.e.f. 01.03.2006 (FN), until further orders.

Consequent on his inclusion in the Select List of Section Officers' Grade (Examination Quota) for the year 2003, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Chhabra, a regular Steno Grade 'C' of CSSS, presently holding the post of Steno Grade A&B (merged) (PS) of CSSS, in the Ministry of Defence, as Section Officer (Rank No. 162) in the CSS Cadre of the same Ministry in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis w.e.f. 28.02.2006 (FN) until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment is subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors Vs Union of India & Ors before the Hon'ble Delhi High Court.

3. The pay etc. of Shri Sanjya Chhabra, Section Officer will be fixed with reference to the pay he would have drawn as Steno Grade 'C' assuming that he had not been appointed as Stenographer Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) on the basis of LDCE, 2002. However, no recovery of pay and allowances drawn by him as Private Secretary will be made.

T. P. KERKETTA
Under Secy.

ARMY BRANCH

DIRECTORATE GENERAL OF NATIONAL CADET CORPS

No. 218, dated 4th April 2006.—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Services

as officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted) (Pay Scale Rs. 6,500-200-10,500/-) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rules 2001, with effect from 28th February 2006 to 23rd August 2006 or till her retirement or till the availability of a regular incumbent, whichever is earlier.

(i) Smt. Sheela Devi

(ii) Smt. Sudesh Kaien

2. This appointment is purely a stopgap arrangement and can be terminated without intimation due to administrative reasons or the availability of a regular incumbent.

3. The officer bears no claim for appointment on regular basis for the post of Section Officer and neither his service as officiating Section Officer under Rule 7(8) will be considered for seniority in the aforesaid grade.

4. The aforesaid officer bear no claim for seniority or approved service in the grade of Section officer till they are not appointed as Section Officers under Rule 7(4) of AFHQ Civil Services Rules 2001 and the provisions contained in Schedule IV. Till this position their seniority, approved service etc. will be considered in their original grade i.e. Assistant grade.

5. This appointment would be subject to potential necessary amendments in order of implementation of decision of Courts/Central Administrative Tribunal, which may influence the seniority in Assistant grade.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 219, dated 10th April 2006.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 7/S/66 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt w/e 02 Sep 2005 with seniority for promotion and increments of pay from 06 Nov 1998 on relinquishing their SSC w/e 02 Sep 2005. Their inter-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain same as allocated in GN for grant SSC.

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-38560, IC-64954M Ravinder Negi, EME

SS-38552, IC-64995P Kapil Sanawar, EME

SS-38562, IC-64956X Mandeep Singh Nijjar, Engrs

SS-38571, IC-64958H Rajesh Sharma, Sigs

SS-38557, IC-64959L Dinesh Singh Mahendra Singh, Engrs

SS-38563, IC-64960A Vikram Khurmi, Engrs

SS-38551, IC-64962L Kulkarni Ajit Vijay, EME
 SS-38553, IC-64963N Gaurav Agarwal, EME
 SS-38567, IC-64964W Vinod Kumar Vijayan, Engrs
 SS-38566, IC-64965Y Shailendra Singh, Engrs
 SS-38555, IC-64966F Mishra Akhilesh Kanhayalal, Engrs

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 02 Sep 2005 with seniority for promotion from 02 May 2001 but for increments of pay from 02 Sep 2000 on relinquishing their SSC wef 02 Sep 2005. Their inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC:—

SS No., IC No., Name and Arm/Service
 SS-38610, IC-64999M Vishal Rana, Inf
 SS-38574, IC-64971M Abhishek Singh, AC
 SS-38575, IC-64972P Narayan Singh Bhati, Inf
 SS-38576, IC-64973X Rajesh Dogra, Inf
 SS-38577, IC-64974A Rajneesh Kumar, AD Arty
 SS-38578, IC-64975H Atique Ahmed Mohd Kasim Siddiqui, Arty
 SS-38579, IC-64976L H Sabarinath, Inf
 SS-38580, IC-64977N Manish Thakur, Sigs
 SS-38581, IC-64978W Arun Kumar Chaubey, EME
 SS-38582, IC-64979Y Tarveni Parshad Sharma, Inf
 SS-38583, IC-64980N K Purna Chandra Rao, Engrs
 SS-38584, IC-64981W Girish Awasthy, Mech
 SS-38585, IC-64982Y Sumit Sabharwal, Arty
 SS-38589, IC-64984K Devender Anand, Arty
 SS-38590, IC-64985M Parveen Kumar, Inf
 SS-38594, IC-64987X Gorakh Singh Senger, Inf
 SS-38595, IC-64988A Sunil Kumar, AC
 SS-38597, IC-64990X Vivek Singh Chundawat, Inf
 SS-38601, IC-64992H Jaidev Singh Guleria, Arty
 SS-38603, IC-64993L Gurinder Pal Singh Amole, Arty
 SS-38604, IC-64994N Shashi Bhushan Jat, AD Arty
 SS-38605, IC-64995W Shailendra Kumar Singh, Inf
 SS-38606, IC-64996Y Deepak Kumar Singh Mehra, AD Arty

SS-38607, IC-64997F Sandeep Duggal, AC
 SS-38608, IC-64998K Adwitiya Kumar Sinha, Inf
 SS-38614, IC-65000N Debaraj Bhattacharya, Inf
 SS-38617, IC-65001W Alok Shukla, Arty
 SS-38619, IC-65002Y Gagan Malhotra, Arty
 SS-38623, IC-65004K Pawan Singh, EME
 SS-38626, IC-65005M Anuj Sudan, AC
 SS-38627, IC-65006P Samir Bharti, Inf
 SS-38628, IC-65007X Gulrez Hasan, Arty
 SS-38629, IC-65008A Ashish Khanna, Inf
 SS-38635, IC-65010X Sanjay Yadav, Arty
 SS-38636, IC-65011A, Vikas, Inf
 SS-38638, IC-65012H, Dileep R, Inf
 SS-38639, IC-65013L Jitander Singh, Int
 SS-38641, IC-65014N V Sivaraman, Engrs
 SS-38642, IC-65015W Subhash Singh Chauhan, Inf
 SS-38644, IC-65016Y Sambit Kumar Sahu, Arty
 SS-38646, IC-65017F Anirban Bhowmick, Inf
 SS-38648, IC-65018K Harsh Vardhan Singh Rathore, AOC
 SS-38649, IC-65019M Deep Singh Bhinder, AC
 SS-38652, IC-65020F Jaswinder Singh Koura, Arty
 SS-38653, IC-65021K Ashok Kumar Misra, Inf
 SS-38654, IC-65022M Dinesh Singh Tanwer, Inf
 SS-38656, IC-65023P Indrajit Ghosh, Inf
 ✓ SS-38659, IC-65024X Narendra Singh Shekhawat, Engrs
 SS-38662, IC-65025A Saurabh Sharma, Arty
 SS-38668, IC-65026H Sameer Awasthi, Arty
 SS-38669, IC-65027L Vijay Singh, Inf
 SS-38673, IC-65029W Amit Kandari, Inf
 SS-38675, IC-65031N Ashwini Kumar Lal, Engrs
 SS-38678, IC-65032W Pradeep Sharma, Engrs
 SS-38679, IC-65033Y Shailesh Satyarthi, Arty
 SS-38680, IC-65034F Deepak Choudhary, AD Arty
 SS-38681, IC-65035K Shailesh P Rao, Inf
 SS-38682, IC-65036M Taqeer Muntakhab, Inf
 SS-38684, IC-65037P Vishal Diddi, Inf
 SS-38685, IC-65038X Sukhdeep Singh, Inf
 SS-38687, IC-65039A Naresh Parashar, AD Arty
 SS-38688, IC-65040P Prasenjit Basu, Inf

SS-38693, IC-65041X Neelgagan Singh Kathuria, Mech
 SS-38694, IC-65042A Shauoor Anjum, EME
 SS-38695, IC-65043H Surya Prakash, Arty
 SS-38696, IC-65044L Pankaj Rawat, Engrs
 SS-38698, IC-65045N Jagdeep Singh, Inf
 SS-38700, IC-65046W Ashish Hansen, Inf
 SS-38705, IC-65048F Narender Prasad, Inf
 SS-38712, IC-65050Y Kishan Singh Mehra, Arty
 SS-38717, IC-65051F Harold Thomas, Arty
 SS-38718, IC-65052K Amarpreet Singh, Arty
 SS-38719, IC-65053M Rahul Nanjappa, Inf
 SS-38720, IC-65054P Dubash Firdosh Pervez, Inf
 SS-38721, IC-65055X Joginder Pal Singh, Inf
 SS-38722, IC-65056A Kailsah Bisht, ASC
 SS-38724, IC-65057H Namit Minocha, Arty
 SS-38725, IC-65058L Bhanu Pratap Singh, Inf
 SS-38728, IC-65059N Mahendra Singh Dhariwal, Inf
 SS-38729, IC-65060H Amit Kumar Karnwal, Arty
 SS-38733, IC-65061L Jissanto K, AD Arty
 SS-38735, IC-65062N Kashish Wadhwa, Inf
 SS-38736, IC-65063W Jerry Manohar, Inf
 SS-38737, IC-65064Y Rajbir Singh, Inf
 SS-38739, IC-65065F Santosh Kumar Singh, Inf
 SS-38741, IC-65066K Anish Katoch, Arty
 SS-38742, IC-65067M Gurminder Singh, Arty
 SS-38744, IC-65068P Manik Trehan, AC
 SS-38745, IC-65069X Manoj Chaudhary, Inf
 SS-38746, IC-65070M Javed Abdi, Arty
 SS-38750, IC-65071P Ravi Ji Raina, Arty
 SS-38754, IC-65072X Shravan Kumar Agrawal, Inf
 SS-38755, IC-65073A Gurumayum Ranjit Sharma, Inf
 SS-38756, IC-65074H Vijay Abraham Thampy, Engrs
 SS-38760, IC-65077W Mahavir Singh, Arty
 SS-38761, IC-65078Y Anubhav Gairola, AC
 SS-38763, IC-65079F Amit Gupta, Arty
 SS-38766, IC-65080W Vikrant, AOC
 SS-38767, IC-65081Y Disouza George Rujay, Inf
 SS-38769, IC-65083K Manish Mohan Sinha, ASC

SS-38770, IC-65084M Prithipal Singh Ahluwalia, EME
 SS-38772, IC-65085P Adeep Paul Panesar, EME
 SS-38773, IC-65086X Nisheeth Thapliyal, Inf
 SS-38776, IC-65087A Ashish Chauhan, Engrs
 SS-38777, IC-65088H J Sherry, Engrs
 SS-38779, IC-65089L Samrat Nagar, Mech
 SS-38780, IC-65090A Praveen Kumar, EME
 SS-38781, IC-65091H Sameer Soman, Arty
 SS-38782, IC-65092L Gegen Vaiphei, Inf
 SS-38784, IC-65093N Ravi Raja, Inf
 SS-38788, IC-65094W Abhimanyu Singh, Inf
 SS-38791, IC-65096F Shalya Chaudhary, Inf
 SS-38794, IC-65098M Bhupinder Singh Sandhu, Inf
 SS-38803, IC-65099P P Pramoth, Arty
 SS-38806, IC-65100Y Alok Kumar Sinha, Inf
 SS-38808, IC-65102K Dhiraj Modgil, Inf
 SS-38809, IC-65103M Manish Kumar, Inf
 SS-38810, IC-65104P Dinesh Chander Vashista, AOC
 SS-38817, IC-65107H Amit Sharma, Inf
 SS-38819, IC-65108L Shaman Kumar, Inf
 SS-38824, IC-65109N Guhanraj K, EME
 SS-38825, IC-65110H Ishan Rajavarapu, Arty

MLN SRAVAN KUMAR
 Col
 Col MS-7

AIR BRANCH

No. 220, dated 10th April 2006.—The President is pleased to award Permanent Commission and Brevets (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Brevets (On Probation) i.e. 20 Dec 2003.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Kaushik Bhattacharya (27688), Pandey Ratnakar (27698), Ankit Gurtu (27704), Amit Kumar (27718), Priyadarshi Dhar (27720) wef 20 Dec 2003.

S SRIVASTAVA
 Wg Cdr
 JDPO-3(D)

No. 221, dated 3rd April 2006.—Consequent on being approved for appointment as Secretary, Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation, the services of Shri Ranjit Issar, IAS (HY: 72), Special Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation w.e.f. 08.03.2006 (FN).

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 222, dated 3rd April 2006.—The President is pleased to confirm the services of the undermentioned Lieutenants on completion of their probationary period with effect from the dates shown against their names:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Rank & Name, Pers No., Corps and Date of Confirmation.

Lt Deepak Verma (VS-1083H), RVC—13 Sep 2004

Lt Subhash Chander Patial (VS-1084L), RVC—13 Sep 2004

Lt Vijay Singh Shekhawat (VS-1085N), RVC—13 Sep 2004

Lt Gurdeep Singh (VS-1086W), RVC—13 Sep 2004

Lt Manoj Kumar Bhatt (VS-1087Y), RVC—13 Sep 2004

Lt Gajender Singh Rathore (VS-1088F), RVC—13 Sep 2004

Lt Santhosh M (VS-1089K), RVC—13 Sep 2004

Lt Alok Kumar Palei (VS-1090Y), RVC—13 Sep 2004

Lt Amit (VS-1091F), RVC—13 Sep 2004

Lt Karabasappa Gurannavar (VS-1092K), RVC—13 Sep 2004

Lt Parvesh Singh (VS-1093M), RVC—13 Sep 2004

Lt Darpan Bedekar (VS-1094P), RVC—13 Sep 2004

Lt Avdhesh Kumar Sharma (VS-1095X), RVC—13 Sep 2004

Lt Praveen M Kallapur (VS-1096A), RVC—13 Sep 2004

Lt Nalin Sharma (VS-1097H), RVC—13 Sep 2004

Lt Vikas Kumar Pradhan (VS-1098L), RVC—13 Sep 2004

Lt Yogesh Singh (VS-1099N), RVC—13 Sep 2004

Lt Mitesh Mittal (VS-1100X), RVC—13 Sep 2004

S. P. SHARMA
Under Secy.

No. 223, dated 4th April 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Subedar Major (Clerk)

Sub (Clk) Rishi Pal Singh (JC-402432F), 03 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar Major (Clerk) without effect on pay and allces wef 01 Jul 2005).

Sub (Clk) Satbir Singh Dahiya (JC-402441H), 01 Oct 2005

To be Subedar

Nb Sub Arun Kumar Singh (JC-403057N), 13 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jun 2005).

Nb Sub Ishwar Singh (JC-403075W), 15 Jun 2005

Nb Sub Shish Pal (JC-403365N), 28 Jun 2005

Nb Sub Ram Niwas Singh (JC-403077F), 01 Jul 2005

Nb Sub Ramesh Chandra Tripathy (JC-403232X), 29 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2005).

Nb Sub Risal Singh (JC-403004P), 30 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Aug 2005).

Nb Sub Shri Pal (JC-403122H), 12 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Aug 2005).

Nb Sub Amar Singh (JC-403144F), 01 Aug 2005

Nb Sub Surinder Singh (JC-403202F), 01 Aug 2005

Nb Sub Rameshwar Singh (JC-402871M), 01 Sep 2005

Nb Sub Gohain Chandra Borah (JC-402966M), 27 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2004).

Nb Sub Uma Shanker (JC-403078K), 22 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2005).

Nb Sub Kailash Singh (JC-403215X), 01 Oct 2005

Nb Sub Ombir Singh (JC-403325M), 25 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2005).

| Nb Sub | To be Nb Sub |
|---|--|
| Nb Sub Rajendra Singh (JC-403226K), 01 Oct 2005 | Hav Surjeet Singh (No. 13688957W now JC-403801A), 02 Aug 2005* |
| Nb Sub Premanathan AC (JC-403227M), 01 Oct 2005 | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 01 Oct 2004). |
| Nb Sub Yag Pal (JC-403234H), 02 Oct 2005* | Hav Mohan Lal (No. 13688232W now JC-403802H), 11 Oct 2005* |
| *(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2005). | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 01 Jul 2005). |
| Nb Sub Vinod Kumar K (JC-403252L), 24 Nov 2005* | Hav Sarbeswar Saikia (No. 13688132L now JC-403803L), 21 Jul 2005 |
| *(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2005). | Hav Rattan Singh (No. 13682591N now JC-403804N), 22 Jul 2005* |
| Nb Sub Indra Singh (JC-403254N), 01 Oct 2005 | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 01 Oct 2004). |
| Nb Sub Hari Krishan (JC-403302L), 01 Oct 2005 | Hav Ram Singh Kathayat (No. 13682607N now JC-403805W), 22 Jul 2005* |
| Nb Sub Hans Raj (JC-403319Y), 01 Oct 2005 | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 11 Nov 2004). |
| Nb Sub Rana Ram Choudhary (JC-403331A), 01 Oct 2005 | Hav Rajinder Singh (No. 13687233M now JC-403806Y), 01 Oct 2005* |
| Nb Sub Shish Ram (JC-403336Y), 01 Oct 2005 | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 01 Sep 2005). |
| Nb Sub Balvir Singh (JC-403338K), 01 Oct 2005 | Hav Ram Dayal Singh (No. 13686381L now JC-403807F), 04 Sep 2005 |
| Nb Sub Satya Pal Singh (JC-403377H), 01 Oct 2005 | Hav Jaypal Singh (No. 13686382N now JC-403808K), 04 Sep 2005 |
| Nb Sub Ravendra Kumar (JC-403448Y), 01 Oct 2005 | Hav Hari Singh (No. 13686379N now JC-403809M), 04 Sep 2005 |
| Nb Sub Gopal Singh (JC-403295A), 17 Nov 2005* | Hav Paramjit Chand (No. 13687569M now JC-403810F), 01 Oct 2005* |
| *(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 26 Oct 2005). | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 07 Sep 2005). |
| Nb Sub Birendra Singh Yadav (JC-403097P), 01 Nov 2005 | Hav Mirsafi Ahmed (No. 13688346F now JC-403811K), 14 Sep 2005* |
| Nb Sub Makhan Lal Joshi (JC-403303N), 01 Nov 2005 | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 12 Sep 2005). |
| Nb Sub Jasveer Singh (JC-403466F), 01 Nov 2005 | Hav Dalim Ch Nath (No. 13683983H now JC-403812M), 18 Oct 2005* |
| Nb Sub Ram Kumar (JC-403165L), 06 Nov 2005 | *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allces wef 01 Oct 2005). |
| Nb Sub Khem Raj (JC-403221L), 01 Dec 2005 | Hav Lakshmi Shankar Pandey (No. 13688585W now JC-403813P), 01 Oct 2005 |
| Nb Sub Maninder Singh (JC-403312P), 07 Dec 2005* | Hav Pramod Kumar Sahu (No. 13688677H now JC-403814X), 01 Oct 2005 |
| *(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Dec 2005). | |
| To be Subedar (Clerk) | |
| Nb Sub (Clk) Bhup Narayan (JC-402928W), 01 Jul 2005 | |
| Nb Sub (Clk) Nawal Kishor Singh (JC-403001F), 24 Oct 2005* | |
| *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) without effect on pay and allces wef 01 Oct 2005). | |
| Nb Sub (Clk) Chanabasappa Huded (JC-403041H), 01 Oct 2005 | |
| Nb Sub (Clk) Onkar Nath Tirpathi (JC-403130F), 07 Nov 2005* | |
| *(Gtd seniority in the rank of Sub (Clk) without effect on pay and allces wef 01 Oct 2005). | |
| Nb Sub (Clk) James PJ (JC-403433W), 01 Nov 2005 | |

Hav Ranjit Kujur (No. 13687787L now JC-403815A),
14 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Ramesh Chandra (No. 13685736Y now JC-
403816H), 01 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Hari Om Singh (No. 13688182W now JC-403817L),
01 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Dham Singh (No. 13682684H now JC-403819W),
01 Oct 2005

Hav Diwan Singh Raval (No. 13682949F now JC-
403820L), 01 Oct 2005

Hav Mohan Swroop (No. 13687770X now JC-403821N),
14 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 20 Oct 2005).

Hav Ashok Kumar (No. 13685399P now JC-
403822W), 01 Oct 2005

Hav Moti Singh (No. 13681762P now JC-403823Y),
18 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Mahendra Singh (No. 13683910F now JC-403824F),
18 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Umesh Singh Tomar (No. 13688796Y now JC-
403825K), 01 Oct 2005

Hav Kuldip Singh (No. 13687630L now JC-403826M),
01 Oct 2005

Hav Sohan Lal (No. 13687686X now JC-403827P), 15
Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 01 Oct 2005).

Hav Om Prakash Jat (No. 13689051X now JC-403828X),
02 Oct 2005

Hav Dileep Kumar (No. 13683660L now JC-403829A),
03 Oct 2005

Hav Rang Rao (No. 13685151L now JC-403830P), 08
Oct 2005

Hav Hans Raj Singh (No. 13686183A now JC-403831X),
08 Oct 2005

Hav Safiqur Rahman (No. 13686302L for JC-403832A),
09 Oct 2005

Hav Narayan Siya (No. 13684979X now JC-403833H),
21 Dec 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 26 Oct 2005).

Hav Naresh Shahi (No. 13686765A now JC-403834L),
19 Nov 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay & allces wef 30 Oct 2005).

Hav Sukhvir (No. 13688468L now JC-403835N), 01 Nov
2005

Hav Mukesh Kumar (No. 13688244L now JC-403837Y),
01 Nov 2005

To be Nb Sub (Clerk)

Hav (Clk) Sushil Kumar Mandal (No. 13686526L now
JC-403570P), 01 Jun 2004

Hav (Clk) Ramjeet Prasad (No. 13686563Y now JC-
403818N), 01 Oct 2005

Hav (Clk) Santosh Kumar Singh (No. 13686892P now
JC-403836W), 01 Nov 2005

ARMOURED CORPS

To be Substantive Risaldar

Nb Ris Narandra Kumar (JC-239396P), 21 Mar 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Mar 2005
without effect on pay & allces).

Nb Ris Angad Prasad Upadhyay (JC-239785P), 02 Jul
2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Apr 2005
without effect on pay & allces).

Nb Ris Chheda Lal (JC-239841H), 12 Jul 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Apr 2005
without effect on pay & allces).

Nb Ris Ghanshyam Singh Rajput (JC-238763K), 20
Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 May 2005
without effect on pay & allces).

Nb Ris Munna Lal Parihar (JC-240171Y), 08 Jun 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 May 2005
without effect on pay & allces).

Nb Ris Rajinder Kumar (JC-240526Y), 22 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jun 2005
without effect on pay & allces).

Nb Ris Randhir Singh (JC-239771P), 17 Aug 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jun 2005
without effect on pay & allces).

- Nb Ris Gajraj Singh (JC-240111K), 18 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jun 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Bajrang Singh (JC-239767W), 31 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jun 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Kashi Ram Singh (JC-239799P), 02 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jun 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Mohinder (JC-240228H), 28 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jun 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Ramesh Chander (JC-239062A), 28 Jul 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Subhash Chander (JC-238843F), 28 Jul 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Bachcha Lal Verma (JC-239555F), 29 Jul 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Om Prakash (JC-240232L), 13 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Kanahaya Prasad Singh (JC-239800Y), 29 Jul 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris G Senthamarai Kannan (JC-240192P), 25 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Jabar Singh (JC-238163F), 17 Jul 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Amrik Singh (JC-240028M), 31 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 03 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Subhash Singh (JC-239444K), 03 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 16 Jul 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Shankar Lal Meena (JC-239469W), 01 Aug 2005
- Nb Ris Rohtash Singh (JC-239198K), 06 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Mohan Singh (JC-239562X), 28 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Syamalan A (JC-239406N), 08 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Jai Pal (JC-240179L), 29 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Ashok Kumar Tripathi (JC-240269M), 10 Oct 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Harbinder Singh (JC-239106M), 01 Aug 2005
- Nb Ris Bajrang Lal Nehra (JC-239944F), 30 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Boor Singh (JC-239225H), 20 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Ranveer Singh (JC-239030K), 11 Aug 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Jiwan Singh (JC-239344Y), 07 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 04 Aug 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Hira Ram Jat (JC-239421H), 01 Sep 2005
- Nb Ris Jaigopal Singh (JC-240274X), 01 Sep 2005
- Nb Ris Puran Singh (JC-239466H), 01 Sep 2005
- Nb Ris Gurcharan Singh (JC-239424W), 11 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Sep 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Balraj Singh Mahnas (JC-239347M), 07 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Sep 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Bishan Dass (JC-239201Y), 04 Oct 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Sep 2005 without effect on pay & allces).
- Nb Ris Kashid Shashikant Eknath (JC-239501A), 27 Sep 2005*
*(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Sep 2005 without effect on pay & allces).

| | |
|--|---|
| Nb Ris Raveendran Nair PS (JC-240135N), 17 Sep 2005* | 2005 without effect on pay & allowances). |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Sep 2005 without effect on pay & allces). | Hav Raghubir Singh (14905107L now JC-420408N), 07 Nov 2005* |
| Nb Ris Manna Ram Choudhary (JC-239972N), 04 Oct 2005* | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances). |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 06 Sep 2005 without effect on pay & allces). | Hav Chander Dhari Sharma (14902846M now JC-420409W), 06 Dec 2005* |
| Nb Ris Ramender Singh (JC-239076A), 01 Oct 2005 | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Kanak Basak (JC-240287P), 15 Oct 2005* | Hav Kana Ram Godara (14904653L now JC-420410L), 22 Dec 2005* |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allces). | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Mehar Singh (JC-240453X), 01 Oct 2005 | Hav Subhash Chand (14912394H now JC-420411N), 23 Dec 2005* |
| Nb Ris Sumesh Chandra (JC-239874N), 01 Oct 2005* | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Samaya Singh (JC-239584W), 20 Oct 2005* | Hav Yumnam Loken Singh (14906011P now JC-420412W), 26 Nov 2005* |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allces). | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Jitendra Singh (JC-239148Y), 01 Oct 2005 | Hav Puran Singh (14907218F now JC-420413Y), 27 Dec 2005* |
| Nb Ris Ashok Kumar (JC-239472W), 04 Oct 2005* | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allces). | Hav Satish Kumar (14909329X now JC-420414F), 08 Dec 2005* |
| Nb Ris Satya Ram (JC-239748F), 12 Oct 2005* | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allces). | Hav Vijender Singh (14904959N now JC-420415K), 22 Dec 2005* |
| Nb Ris Chand Ram (JC-240245H), 04 Oct 2005* | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 28 Oct 2005 without effect on pay & allowances). |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allces). | Hav Ranjit Singh (14909721X now JC-420416M), 28 Nov 2005* |
| Nb Ris Dharam Pal (JC-240289A), 01 Oct 2005 | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Ramesh Chand (JC-239586F), 20 Oct 2005* | Hav Manoharan TP (14910435H now JC-420417P), 19 Nov 2005* |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allces). | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Kamta Nand Jha (JC-240051A), 01 Nov 2005 | Hav Ramesh Chand (14908772Y now JC-420418X), 19 Nov 2005* |
| Nb Ris Kamal Dev (JC-239682W), 01 Nov 2005 | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances). |
| Nb Ris Surta Ram (JC-239708A), 02 Nov 2005* | Hav Manoharan TP (14910435H now JC-420417P), 19 Nov 2005* |
| *(Gtd seniority in the rank of Ris w.e.f. 01 Nov 2005 without effect on pay & allces). | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances). |
| THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT | |
| To be Naib Subedar | |
| Hav Bal Ram (14911267F now JC-420407L), 19 Dec 2005* | *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 2005 without effect on pay & allowances). |
| *(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun | |

Hav Madan Singh (14909395A now JC-420419A), 01 Dec 2005

Hav Ram Darshan Shukla (14905316H now JC-420420P), 01 Dec 2005

Hav Swarajjit Lal Goswami (14905733P now JC-420421X), 01 Dec 2005

Hav Surjit Singh (14909902H now JC-420422A), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec 2005 without effect on pay & allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 224, dated 3rd April 2006.—The president is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Lal Singh (JC-212978L), 01 Sep 2005

Sub Lal Singh (JC-173900F), 01 Oct 2005

Sub Virendra Singh (JC-192932Y), 01 Oct 2005

Sub Nathu Ram (JC-182076Y), 01 Oct 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Mahavir Singh Gill (JC-169667F), 01 Apr 2005

Nb Sub Fateh Ram (JC-478499N), 01 Aug 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-185188K), 01 Sep 2005

Nb Sub Sohan Singh (JC-205139L), 01 Sep 2005

Nb Sub Chandra Bhushan Singh (JC-184240P), 01 Sep 2005

Nb Sub Joginder Singh (JC-185190F), 01 Sep 2005

Nb Sub Karan Singh (JC-211555L), 12 Sep 2005

Nb Sub Gopal Singh (JC-194625A), 01 Oct 2005

Nb Sub Nand Lal (JC-518744W), 01 Oct 2005

Nb Sub Kunja Bihari Singha (JC-548253P), 01 Oct 2005

Nb Sub Nityanand Swarnkar (JC-747907L), 01 Oct 2005

Nb Sub Joginder Pal (JC-192721W), 01 Oct 2005

Nb Sub Amrik Singh (JC-218061K), 01 Oct 2005

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Nand Lal (JC-156832H), 01 Dec 2005

Sub Bharat Singh (JC-187633W), 01 Dec 2005

Sub Angrez Singh (JC-203844L), 01 Jan 2006

Sub Kesar Singh (JC-183055P), 01 Jan 2006

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Harnam Singh, SC (JC-132937N), 01 Apr 2001

Nb Sub Prem Lal (JC-174509W), 01 Apr 2005

Nb Sub Shiv Ram (JC-840802N), 01 Dec 2005

Nb Sub Malla Singh (JC-840803W), 01 Dec 2005

Nb Sub Satya Ranjan Das (JC-840792P), 01 Dec 2005

Nb Sub Munna Lal (JC-840804Y), 01 Dec 2005

Nb Sub Jagdish Chandra Bhatt (JC-199324A), 01 Dec 2005

Nb Sub Bishan Singh Bisht (JC-204147X), 01 Dec 2005

Nb Sub Narain Dass Basliyal (JC-528078K), 01 Dec 2005

Nb Sub Chandra Pal (JC-412173X), 01 Jan 2006

Nb Sub Trilok Singh Rawat (JC-528471M), 01 Jan 2006

Nb Sub Nanda Prasad Pun (JC-612089F), 01 Jan 2006

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

Warrant Officers/Hav (Clks) To be Nb Sub (Postal)

WO Hari Shanker Patel (No. 8371262W now JC-834508X), 27 Nov 2004*

WO Ved Prakash (No. 8371629L now JC-834509A), 30 Nov 2004*

WO Shyam Sunder Prasad (No. 8372132A now JC-834510P), 18 Dec 2004*

WO Shamim Akhtar (No. 8372328N now JC-834511X), 28 Mar 2005*

WO Negi Suman Singh Jagat Singh (No. 8373506X now JC-834512A), 06 Dec 2004*

WO S Manikandan (No. 8373664M now JC-834513H), 22 Nov 2004*

WO Shyam Sunder Maharana (No. 8373725Y now JC-834514L), 25 Nov 2004*

WO Chetan Anand (No. 8373728M now JC-834515N), 29 Nov 2004*

WO Jitendra Singh Ranakant Singh (No. 8373736L now JC-834516W), 27 Nov 2004*

WO Yogeshwar Lal Dhanendra (No. 8373820L now JC-834517Y), 17 Dec 2004*

WO Mohammad Luthfi Ali (No. 8373845X now JC-834518F), 05 Apr 2005*

WO Prakash Ram (No. 8373846A now JC-834519K), 13 Dec 2004*

WO Kulkarni Pankaj Balaji (No. 8373983Y now JC-

834520Y), 22 Nov 2004*

WO Pratap Fatu Malik (No. 8374030H now JC-834521F),
17 Dec 2004*

WO K P Pradeep (No. 8374356Y now JC-834522K),
08 Feb 2005*

WO Mahavir Singh (No. 8374628N now JC-834523M),
05 Jan 2005*

WO Ghule Vilas (No. 8374888Y now JC-834524P),
14 Feb 2005*

WO Gudipati Nageswara Rao (No. 8375362Y now JC-
834525X), 05 Jan 2005*

WO HM Nagaraju (No. 8375382M now JC-834526A),
27 Nov 2004*

WO Shiva Kumar S (No. 8375384X now JC-834527H),
27 Nov 2004*

WO Jagdeep Sheoran (No. 8375388N now JC-834528L),
29 Nov 2004*

WO Veeraraghavaiah Thummala (No. 8375389W now
JC-834529N), 29 Nov 2004*

WO Sanjay Dubey (No. 8375441N now JC-834530H),
27 Nov 2004*

WO Sunil Kumar Vairagi (No. 8375452A now JC-
834531L), 25 Nov 2004*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 19 Sep
2004 without effect on pay & allowances).

WO Jata Shankar Jha (No. 8371638M now JC-834532N),
27 Oct 2004**

WO Indra Nath Jha (No. 8373687N now JC-834533W),
04 Jan 2005**

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct
2004 without effect on pay & allowances).

Hav/Clk Subedar (No. 8430656P now JC-834534Y),
01 Nov 2004

Hav/Clk Rabindra Prasad Singh (No. 8430106M now
JC-834535F), 03 Dec 2004\$

Hav/Clk Vinay Kumar (No. 8430444K now JC-834536K),
01 Jan 2005\$

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov
2004 without effect on pay & allowances).

T. K. M. PILLAI
Under Secy.

No. 225, dated 5th April 2006.—The President is pleased
to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PIONEER CORPS

To be Nb Sub (GD/CLK)

Rank, Name, Army No. now JC No. and Date of Promotion.

Hav (GD) Janak Singh, SC (8032514H now JC-829326A),
13 May 2005*

Hav (GD) Balendra Prasad Pal (8029787A now JC-
829331L), 16 May 2005**

Hav (GD) Om Prakash Sharma (8028593L now JC-
829333W), 01 Jun 2005

Hav (GD) Surendra Pal (8029005Y now JC-829334Y),
03 Jul 2005@

Hav (GD) Asha Ram (8029102W now JC-829335F),
01 Jul 2005

Hav (GD) Suraj Pal Singh (8029111X now JC-829336K),
01 Jul 2005*

Hav (GD) Narinder Singh (8028606X now JC-829338P),
01 Sep 2005*

Hav (GD) Md Aktaruddin Mazumdar (8029050L now
JC-829341P), 07 Oct 2005\$

Hav (GD) Ashok Kumar S (8031525H now JC-829342X),
21 Nov 2005^

Hav (GD) Om Prakash Mishra (8028264P now JC-
829343A), 21 Nov 2005^

Hav (GD) Rajbir (8029182Y now JC-829345L), 18 Nov
2005^

Hav (GD) Ramesh Chandra (8029420A now JC-
829346N), 22 Nov 2005^

Hav (GD) Binod Kumar Mandal (8031952A now JC-
829332N), 10 Jun 2005#

Hav (GD) Mahesh Chander (8029494P now JC-
829340M), 01 Sep 2005

*[Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) w.e.f. 19
Mar 2005 without effect on pay & allowances (i.e. the
next day on which direction on redrasal given by GOC-
in-C HQ North Comd against non statutory complain).

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) w.e.f.
01 May 2005 without effect on pay & allowances).

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) w.e.f.
01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) w.e.f.
05 Sep 2005 without effect on pay & allowances).

^ (Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) w.e.f.
01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) w.e.f.
01 Jun 2005 without effect on pay & allowances).

CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (Y of S)

Hav Madane Suresh N (No. 15364560Y now JC-376251W), 22 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Jadhav Sanjay V (No. 15360262L now JC-376253F), 01 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav M P Kaushik (No. 15363405L now JC-376254K), 01 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

To be Nb Subedar (F of S)

Hav Krishan Gopal (No. 15381797M now JC-376255M), 12 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav S Gopalamoorthy (No. 15382283F now JC-376257X), 17 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav E V Ramana (No. 15369426X now JC-376258A), 03 Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav A Murugan (No. 15375164H now JC-376259H), 01 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Rabindra Kumara Nayak (No. 15382347F now JC-376260X), 15 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Samunder Singh (No. 15382515P now JC-376262H), 01 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Antony P (No. 15384970W now JC-376263L), 09 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav K Rajagopal (No. 15377706A now JC-376264N), 18 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

To be Nb Subedar (OP Ciph)

Hav Raj Kumar (No. 14256519H now JC-376231H), 01 Sep 2005

Hav Banamali Naik (No. 14256952M now JC-376265W), 01 Oct 2005

Hav Thorat Ashok Rambhau (No. 14253344A now JC-376266Y), 01 Oct 2005

Hav J S Prasad Raman (No. 14257109Y now JC-376267F), 01 Oct 2005

Hav J S Prasad Raman (No. 14257109Y now JC-376267F), 01 Oct 2005

Hav Dinesh Kumar (No. 14257201X now JC-376268K), 01 Oct 2005

Hav Shiva Kumar (No. 14250006X now JC-376270F), 01 Oct 2005

Hav Deshmukh Vijay K (No. 14255004W now JC-376272M), 01 Oct 2005

To be Nb Subedar (OP Spec)

Hav Dharmpal (No. 14255342N now JC-375858W), 07 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances).

Hav M Rafeek (No. 14254463H now JC-375924N), 01 Apr 2005

Hav V S Prasad (No. 14256680X now JC-375926Y), 01 Apr 2005

Hav Devendra Singh (No. 14255113H now JC-375940L), 01 Apr 2005

Hav H K Pandey (No. 14250244K now JC-375944F), 01 Apr 2005

Hav P R Dev Chand (No. 14259178N now JC-376110F), 11 Jul 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Satish Chandra (No. 14256385P now JC-376232L), 01 Sep 2005

Hav T C Mandal (No. 14260966K now JC-376273P), 01 Oct 2005

Hav Shree Ram (No. 14260994W now JC-376274X), 01 Oct 2005

Hav Shashi Kant Ojha (No. 14260986X now JC-376275A), 01 Oct 2005

To be Nb Subedar (Clk GD)

Hav Ram Krishna (No. 14258473K now JC-376235Y), 01 Sep 2005

Hav Sundaresan KG (No. 14258303A now JC-376276H), 04 Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2005 without effect on pay & allowances).

Hav Vinod Kumar (No. 14258489P now JC-376277L),
01 Oct 2005

Hav Vikram Singh Rawat (No. 14258305L now JC-
376278N), 01 Oct 2005

Hav Ram Anuj Tiwari (No. 14258320A now JC-
376279W), 01 Oct 2005

Hav Raghubir (No. 14258497N now JC-376280L),
01 Oct 2005

Hav Namonarayan Mishra (No. 14258566Y now JC-
376281N), 01 Oct 2005

To be Nb Subedar (GD)

Hav Arwind Singh (No. 14240584Y now JC-376218Y),
03 Sep 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ramchandra Saroj (No. 14250424M now JC-
376175P), 02 Jul 2005

Hav J K Pathak (No. 14246886F now JC-376197N),
01 Aug 2005

Hav Prema Madhu S (No. 14243676W now JC-
376203W), 01 Aug 2005

Hav Pramod Kumar (No. 14247339Y now JC-376204Y),
13 Aug 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Aug
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Rakshpal Singh (No. 14247831K now JC-376205F),
01 Aug 2005

Hav Nafe Singh (No. 14248257H now JC-376212X),
01 Aug 2005

Hav S K Eshak Ali (No. 14247718P now JC-376236F),
01 Sep 2005

Hav Subhash Singh (No. 14232639H now JC-376244A),
01 Sep 2005

Hav Garibe Lal (No. 14234100X now JC-376245H),
01 Sep 2005

Hav V Kathir Velu (No. 14250022P now JC-376284F),
01 Oct 2005

Hav Sunder Singh (No. 14250367W now JC-376286M),
01 Oct 2005

Hav Balbir Singh (No. 14234356A now JC-376287P),
01 Oct 2005

Hav Palwinder Singh (No. 14250181M now JC-
376289A), 01 Oct 2005

Hav Tej Kumar (No. 14250895A now JC-376290P),
01 Oct 2005

Hav Ajit Singh (No. 14251219X now JC-376292A),
01 Oct 2005

Hav Balvir Giri (No. 14251040K now JC-376293H), 03
Oct 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct
2005 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Kishan (No. 14248995M now JC-376295N),
01 Oct 2005

Hav Japan Singh (No. 14235374P now JC-376296W),
01 Oct 2005

Hav R C Choubey (No. 14248941L now JC-376297Y),
01 Oct 2005

Hav Om Kanwar (No. 14250403W now JC-376298F),
01 Oct 2005

Hav Dil Bag (No. 14250884N now JC-376299K), 01 Oct
2005

Hav Ramesh Prasad Gupta (No. 14248958Y now JC-
376300N), 01 Oct 2005

Hav Gurdeep Singh (No. 14248038F now JC-376301W),
01 Oct 2005

CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub C Moorthi (JC-296075W), 01 Dec 2005

Sub Vijay Singh (JC-297041P), 16 Dec 2005/01 Dec
2005*

Sub Mahender Singh (JC-297051Y), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Sub Basti Ram (JC-296673N), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sub Rampal Singh (JC-296777P), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Varkey MV (JC-296084X), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dilbagh Singh (JC-298679N), 05 Oct 2005/
20 Jul 2005*

Nb Sub Md Jahid Ali (JC-297952L), 17 Sep 2005/
01 Aug 2005*

Nb Sub Satyanarayan Singh (JC-298278Y), 18 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Ratheesh Kumar P (JC-298644X), 25 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nb Sub Prasanna Kumar R (JC-298322X), 12 Oct 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub Rameshwar Prasad (JC-298624K), 08 Dec 2005/
01 Oct 2005*

Nb Sub Ravindran NK (JC-298773X), 22 Nov 2005/
06 Oct 2005*

Nb Sub S Shanmugam (JC-298071Y), 13 Jan 2006/
11 Nov 2005*

Nb Sub Mohan Chandra Das (JC-298364K), 25 Nov 2005/
14 Nov 2005*

Nb Sub Jagannath Pal (JC-298175A), 13 Jan 2006/
01 Dec 2005*

Nb Sub Shallo Ram (JC-298379M), 06 Dec 2005/01 Dec
2005*

Nb Sub Narinder Singh Rawat (JC-298618W), 27 Jan
2006/01 Dec 2005*

Nb Sub Shivji Ram Meena (JC-298302K), 13 Jan 2006/
22 Dec 2005*

Nb Sub Naresh Chander (JC-297843Y), 04 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Bhagwat Singh Patel (JC-298176H), 01 Jan 2006

Nb Sub Sri Narayan Mandal (JC-298299P), 06 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Mahabir Singh (JC-298230L), 01 Jan 2006

Nb Sub Nipen Gogoi (JC-298426Y), 08 Jan 2005/01 Jan
2005*

Nb Sub Khagen Chandra Sarma (JC-298371L), 01 Feb
2006

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Saroj Kumar Roy (JC-298751Y), 01 Jan 2006

Nb Sub G Pradeep Kumar (JC-298752F), 28 Jan 2006/
01 Jan 2006*

Nb Sub Mahendra Singh (JC-298753K), 01 Jan 2006

Nb Sub Veer Bhimrao (JC-298758H), 01 Feb 2006

Nb Sub Shiju Alex (JC-298759L), 04 Feb 2006/01 Feb
2006*

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Mani Ram (JC-297662N), 01 Feb 2006

Nb Sub Brij Kishor Pant (JC-297685P), 01 Feb 2006

Nb Sub Dost Mohammad (JC-297663W), 01 Feb 2006

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Kuldip Singh (JC-298009M), 02 Jan 2006/
01 Jan 2006*

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub Sri Krishna Kant Upadhyay (JC-296360P),
10 Dec 2005/01 Dec 2005*

Nb Sub Girja Kant Shukla (JC-296362A), 05 Dec 2005/
01 Dec 2005*

Nb Sub Ramesh Chandra Mishra (JC-296363H), 13 Feb
2006/13 Jan 2006*

*(Gtd ante-date seniority wef)

S P SHARMA
Under Secy.

No. 226, dated 3rd April 2006.—The President is pleased
to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

CORPS OF MILITARY POLICE

To be Subedar Major (MP)

Sub Rajender Pal Sharma (JC-818315N), 07 Sep 2005%

Sub Hari Om Singh (JC-818319K), 05 Oct 2005@

%(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2005
without effect on pay and allowances).

@(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2005
without effect on pay and allowances).

To be Subedar (MP)

Nb Sub Narisetty Raghava Rao (JC-818758P), 10 Dec
2005*

Nb Sub Gau Lal (JC-818770W), 10 Oct 2005@

Nb Sub Rama Shankar Sharma (JC-818771Y), 01 Oct
2005

Nb Sub Abhe Singh (JC-818772F), 01 Oct 2005

Nb Sub Prabhat Kumar Bharti (JC-818773K), 01 Oct 2005

Nb Sub Vijay Pal Singh (JC-818774M), 01 Oct 2005

Nb Sub Rakesh (JC-818775P), 01 Oct 2005

Nb Sub Satya Pal Singh (JC-818776X), 01 Oct 2005

Nb Sub Krishna Kumar MD (JC-818777A), 16 Nov 2005@

Nb Sub Mahender Singh (JC-818779L), 03 Oct 2005@

Nb Sub Hawa Singh (JC-818782L), 01 Oct 2005

Nb Sub Sail Vilas Sakha Ram (JC-818783N), 01 Nov
2005

Nb Sub Rajnath Yadav (JC-818784W), 01 Nov 2005

Nb Sub J Amal Raj (JC-818785Y), 01 Nov 2005

Nb Sub Bhagirath Singh (JC-818786F), 02 Nov 2005#

Nb Sub Birendra Singh (JC-818787K), 03 Nov 2005#

Nb Sub Manoj Kumar Biswas (JC-818788M), 01 Nov
2005

Nb Sub Darbara Singh Nain (JC-818790K), 01 Nov 2005

Nb Sub Ashok Nath Tripathi (JC-818792P), 01 Nov 2005

Nb Sub Raja Gopalan K (JC-818793X), 01 Dec 2005

Nb Sub Surat Singh (JC-818794A), 01 Dec 2005

Nb Sub Prem Ballabh Pandey (JC-818795H), 01 Dec 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-818797N), 01 Dec 2005
 Nb Sub Navrang Lal Jat (JC-818798W), 01 Dec 2005
 Nb Sub Surender Singh Verma (JC-818799Y), 01 Dec 2005
 Nb Sub Vinoda Nand Roy (JC-818803W), 22 Dec 2005\$
 *(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).
 @(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).
 #(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).
 \$(Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub Shiv Das (JC-818548P), 01 Dec 2005
 Nb Sub Raj Kumar Singh (JC-818549X), 01 Dec 2005

DIWAKAR
 Under Secy.

No. 227, dated 4th April 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Subedar Major

Sub Vijay Pal Singh (JC-213368L), 01 Dec 2005
 Sub Ramvir Singh Sengar (JC-214293L), 01 Dec 2005
 Sub Harbans Lal (JC-214294N), 01 Dec 2005
 Sub Ram Singh Dalal (JC-214295W), 15 Dec 2005@
 @(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).
 Sub Ramesh Chand (JC-216181K), 01 Jan 2006
 Sub Gurmeet Singh (JC-216994A), 01 Jan 2006
 Sub Anil Kumar Mehta (JC-216186H), 02 Jan 2006#
 #(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).
 Sub Devi Singh (JC-216212Y), 01 Jan 2006
 Sub Thakur Singh (JC-225170A), 01 Jan 2006
 Sub Kalyan Singh (JC-217156X), 01 Jan 2006

To be Subedar

Nb Sub Dharm Pal (JC-802909Y), 01 May 2005#
 #(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Yashwant Singh (JC-802929M), 03 May 2005@
 Nb Sub Awdhesh Mishra (JC-802930F), 03 May 2005@
 @(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Dharam Pal (JC-802940L), 13 Jun 2005\$
 \$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Rajendra Kumar Yadav (JC-802943Y), 01 Aug 2005*
 Nb Sub Umesh Baboo (JC-802947P), 19 Aug 2005*
 Nb Sub Rajendra Parshad (JC-802948X), 27 Jul 2005*
 Nb Sub Kailash Bihari Dwivedi (JC-802950P), 20 Aug 2005*
 Nb Sub Jai Datt (JC-802952A), 20 Jul 2005*
 Nb Sub Surinder Singh (JC-802951X), 27 Jul 2005*
 *(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Ram Shankar Shukla (JC-802956W), 14 Aug 2005%
 Nb Sub Sajjan Kumar Boora (JC-802958F), 01 Aug 2005
 Nb Sub Syed Khaliq Ahmad (JC-802959K), 01 Aug 2005
 Nb Sub Rama Kant Mishra (JC-802960Y), 03 Aug 2005%
 Nb Sub Ram Lakhan Dwivedi (JC-802961F), 02 Sep 2005%
 %(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances).
 Nb Sub Govind Singh Kanwasi (JC-802963M), 01 Sep 2005
 Nb Sub Joginder Singh (JC-802967H), 01 Sep 2005

V K KAPOOR
 Under Secy.

No. 228, dated 10th April 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Surg RADM (& equivalent)
 VS Dixit (MR-03548W) (75150), 05 Sep 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2005.
 Surg Cdr (& equivalent) to be Surg Capt (& equivalent)
 Surg Capt B Sudarsan (MR-04702W) (75328), 29 Nov 2004 with notional seniority without effect on pay & pension

from 01 Jun 2004.

Surg Capt S Suchdeva (MR-03876K) (75240), 04 Aug 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2005.

Surg Capt Girish Gupta (MR-05267Y) (75445), 28 Jan 2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Jan 2005.

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 229, dated 10th April 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name and Arm

IC-54607 Anand Kumar, AAD

IC-54609 Deepak Upreti, Inf

IC-54610 Vikram Bhan, Inf

IC-54612 Jaideep Bali, Inf

IC-54613 S Bhagotra, Engrs

IC-54614 Tarjeet Singh Kairon, Inf

IC-54616 G Vijay Bhaskar Reddy, Sigs

IC-54617 Surendra Kumar Yadav, ASC

IC-54618 Suryaveer Singh Sisodia, ASC

IC-54619 Sanjeev Malik, Arty

IC-54620 Anant Vijay Shahi, AC

IC-54621 Srikrishna V, Inf

IC-54623 R Sridharan, Engrs

IC-54624 Devesh Singh, AOC

IC-54627 Niranjan Rajkumar Jakhar, Inf

IC-54628 S Joshi, AVN

IC-54629 V Bala Ganesan, Arty

IC-54631 Rajeev Vishnu Sawant, Inf

IC-54633 Anil Sitaram Lawant, ASC

IC-54635 Sundeep Sen, Inf

IC-54636 KK Nair, Inf

IC-54637 Kishan Singh Jhala, ASC

IC-54639 Amarjit Singh Sandhu, AOC

IC-54640 Uday Vir Singh, ASC

IC-54641 SY Shinde, Inf

IC-54642 Manoj Handa, ASC

IC-54643 HS Khokher, AAD

IC-54645 K Dinakar, Inf

IC-54646 K Balaji, AC

IC-54647 M Rajiv Menon, Inf

IC-54648 Santosh Kumar Awasthi, AOC

IC-54649 Manish Marwah, Arty

IC-54650 Bishnu Ram, Arty

IC-54652 Chetan Gurbax, AC

IC-54653 Gurvinder Singh, Int

IC-54654 BS Kashid, Inf

IC-54655 Kapil Sharma, ASC

IC-54656 Sunil Kumar Jha, ASC

IC-54657 Harvinder Singh Gill, AOC

IC-54658 RB Choudhary, Inf

IC-54659 EA Johnson, Inf

IC-54660 V Jayan, Inf

IC-54661 GRK Sessa Sai, EME

IC-54662 Manoj Kumar, AAD

IC-54663 R Kaul, Inf

IC-54664 Samir Kacker, AOC

IC-54665 Sanjay Bharati, AOC

IC-54666 Shyam Bihari Singh Yadav, Inf

IC-54667 Sandeep Kumar, EME

IC-54668 PT Rajiv, Inf

IC-54669 Rajesh Singh, ASC

IC-54670 I Sudhir Chengappa, AOC

IC-54671 Sandeep Bhatia, ASC

IC-54672 Bipul Chandranath, Inf

IC-54673 Sanjeev Dhoundiyal, AOC

IC-54675 Manoj Guar, Engrs

IC-54676 Thogaram Uma Sankar, AOC

IC-54678 Quazim Raza Haidry, ASC

IC-54679 Amitabh Dutta, Engrs

IC-54680 Kishore Kumar Gwari, AOC

IC-54681 Shachindra Sharma, ASC

IC-54682 Jasvir Singh, Inf

IC-54683 Rakesh Arya, ASC

IC-54684 Sanjay Singh, Engrs

IC-54685 Arvind Dudi, Inf

IC-54686 Rupinderjit Singh, Arty

IC-54687 Ajay Pahuja, Arty

IC-54688 Vishu Bhatnagar, Arty
 IC-54692 Maneesh Puri, ASC
 IC-54693 Dharmender Singh Patyal, Inf
 IC-54694 Mohammed Ali Dubey, Engrs
 IC-54695 S Chander, AC
 IC-54696 Arindam Hardique, Engrs
 IC-54697 Vinod Kumar Yadav, AOC
 IC-54698 Rajeshwar Parmar, Inf
 IC-54699 Kanwardeep Singh, AAD
 IC-54700 Arvind Kumar Awasthi, Engrs
 IC-54701 Sreedhar Vasudevan, AC
 IC-54703 G Kumar, ASC
 IC-54704 Arun Nayyar, ASC
 IC-54705 Nitin Sharma, AOC
 IC-54707 Manish Arora, Inf
 IC-54708 Bhanu Mishra, Int
 IC-54709 Manish Kumar, Engrs
 IC-54710 K Sendhilmathan, EME
 IC-54711 Anchal Bahukhandi, Inf
 IC-54712 Samardeep Singh, Engrs
 IC-54713 Dinesh Kumar Sharma, ASC
 IC-54714 Sanjay Dixit, Engrs
 IC-54715 Gaurav Misra, Engrs
 IC-54716 Arun Sood, AC
 IC-54717 Gulshan Chadha, Inf
 IC-54718 Joseph Shaon, Inf
 IC-54719 R Siva Kumar, ASC
 IC-54720 MKS Raghav, Int
 IC-54721 Bapat Kedar Jagannath, Inf
 IC-54722 Amit Anand Pandya, Arty
 IC-54723 Ajai Anand Bouria, Inf
 IC-54724 Christopher C D'Silva, ASC
 IC-54725 Vinod Bhat, Engrs
 IC-54726 Raja Maji, ASC
 IC-54728 Porayath Rajnarayan, Inf
 IC-54729 Sandeep Tejpal, AAD
 IC-54730 Alok Raj, AOC
 IC-54731 Albert Summer Baryawal, Inf
 IC-54732 Manoj Kumar R, ASC
 IC-54733 Manoj Kumar Sirohi, AC
 IC-54737 Alok Srivastava, ASC

IC-54738 Bharat Joshi, ASC
 IC-54739 Rajnish Saldhi, AC
 IC-54740 Charan Dev Singh, Inf
 —06 Nov 2005
 Capt to be Maj
 IC No., Name and Arm
 IC-59056 Kshitij Balhara, Inf
 IC-59057 Parmender K Malik, AC
 IC-59060 Soubhagya Nayak, AAD
 IC-59062 Rajesh Arya, ASC
 IC-59063 Saleem Aijaz, Arty
 IC-59065 Ritesh Katoch, Inf
 IC-59066 Mohit Sharma, Inf
 IC-59067 Hemant Singh Ponwar, Inf
 IC-59068 S Sathiamoorthy, AOC
 IC-59069 Manav Yadav, AC
 IC-59070 Sarfraz Singh, Inf
 IC-59072 Sanjay Sharma, Inf
 IC-59073 Jagdip Singh Chhatwal, Arty
 IC-59074 Umang Gandotra, Arty
 IC-59075 Sukhakar Thakur, Inf
 IC-59076 Inder Preet Singh, Inf
 IC-59078 Himanshu Khulbe, Arty
 IC-59079 Shubhankar Sengupta, Mech
 IC-59080 Pradeep Semwal, Inf
 IC-59081 Bed Prasad Dhungana, Arty
 IC-59082 Harpinder Singh Dhillon, Inf
 IC-59083 Jai Singh Shekhawat, AAD
 IC-59084 Vivek Moudgil, Int
 IC-59088 Vijay Kumar Sharma, Inf
 IC-59089 Ashish Anil Joshi, Inf
 IC-59090 Akshat Suryavanshi, Arty
 IC-59092 Pushpinder Singh Jamwal, Inf
 IC-59093 Vikarm Jeet Singh Pandher, Inf
 IC-59094 MB Thimaiah, ASC
 IC-59095 Kumar Anand, Inf
 IC-59097 Khan Shagaf Shuja, Inf
 IC-59098 Aditya Singh, Inf
 IC-59100 Shailender Sharma, Inf
 IC-59101 Kurkure Amit Vinayak, Arty
 IC-59103 Sushil Kumar Rana, Arty
 IC-59105 Rajiv Saharan, Inf

| | |
|---|--|
| IC-59106 Manoj Kumar Singh, Arty | IC-59167 Tushar Gopal Kumthekar, Inf |
| IC-59107 Ashutosh Sharma, Arty | IC-59168 Amardeep Singh Hooda, Inf |
| IC-59108 Avneesh Rawat, Mech | IC-59169 Madhava N Iyengar, Inf |
| IC-59113 Nishant Shetty, Inf | IC-59170 Rajesh Jaglan, Arty |
| IC-59117 Suman Majumder, AAD | IC-59171 Rajeev Shankar, ASC |
| IC-59118 Ruchir Sethi, AAD | IC-59173 Nitin Singh Sambyal, Arty |
| IC-59120 Vinay Pal Singh, AAD | IC-59174 Manoj Kumar Joshi, AAD |
| IC-59121 Arnab Sarkar, AC | IC-59175 Shubhankar Ghoshal, Inf |
| IC-59123 Dhekane Santosh Subhash, Arty | IC-59177 Paritosh Upadhayay, AOC |
| IC-591124 Rahul Mishra, Inf | IC-59178 Gaikwad Kedar Vijay, Arty |
| IC-59125 Jagannath Prasad Barik, Mech | IC-59180 Shrirang S Mooley, Inf |
| IC-59127 Khandge Hrushikesh Dilip, Inf | IC-59182 Om Parkash Mishra, Inf |
| IC-59129 BV Sat Vijay Balaram, AAD | IC-59183 Sudhir Chamoli, Inf |
| IC-59131 Shrot Singh, Inf | IC-59185 Manoj K, AC |
| IC-59132 Amar Attri, ASC | IC-59186 Shivanand Alias Shivabsappa, Arty |
| IC-59133 Warghade Shivaji Bhagawant, Inf | IC-59187 Ashwini Mishra, AAD |
| IC-59136 Pradeep Singh Karki, Inf | IC-59188 Sonam Bhardwaj, AOC |
| IC-59137 Alok Srivastava, AC | IC-59190 S Singh, Int |
| IC-59138 Animesh Jatrama, Inf | IC-59191 Shivraj Anand More Dalvi, Arty |
| IC-59139 Randhir Kumar Singh, Inf | IC-59192 Sandeep Singh Randhawa, ASC |
| IC-59141 Rohit Rawat, Inf | IC-59193 Vinod Kumar Shivran, Mech |
| IC-59142 Ranjit Singh Pawar, AOC | IC-59194 Vibhakar Tyagi, Arty |
| IC-59144 P Alexander, Inf | IC-59197 Sumeet Vashishth, Engrs |
| IC-59146 K Sudhakar, Inf | IC-59198 Pradeep Kumar Sengupta, Inf |
| IC-59147 Zubin Siddique, ASC | IC-59199 Akshay Budharaja, Inf |
| IC-59148 Suresh Kumar Singh, Arty | IC-59201 Nishant Sanwal, Inf |
| IC-59149 Rajat Sharma, AC | IC-59202 Atul Devli, Inf |
| IC-59151 Sandeep Sharma, AOC | IC-59203 Rajiv Thomas, Inf |
| IC-59152 Parag Chauhan, Arty | IC-59204 Faizan Zahoor, Inf |
| IC-59153 Amandeep Singh, AAD | IC-59205 Salvekar Sandeep Somnath, Arty |
| IC-59154 Phanjoubam Sananda Singh, Inf | IC-59206 Girish Chandra Pandey, Inf |
| IC-59155 Anupam Joshi, Arty | IC-59207 Ambrish Rai, Arty |
| IC-59156 Shailendra Singh, Inf | IC-59208 Bhaskar Tomar, Inf |
| IC-59157 Bethana Belli Jagannadha Naidu, Arty | IC-59210 Manu Dhankar, AC |
| IC-59158 Rohit Tyagi, AC | IC-59213 Vishal Pathania, ASC |
| IC-59159 Maneesh Parthasarthy, Inf | IC-59214 Abhijeet Das, ASC |
| IC-59161 Sandeep Kumar, ASC | IC-59216 Inderjit Singh, AAD |
| IC-59162 Akshay Yadava, Mech | IC-59218 Gunjesh Sharma, AC |
| IC-59163 Aneel Sarotra, Inf | IC-59219 Sumit Sheron, Int |
| IC-59164 Vishal Babbar, AOC | IC-59221 Bhupender Mehra, Arty |
| IC-59165 M Arjun Ranjan, Arty | IC-59223 Pramod Kumar Yadav, Mech |

| | |
|---|--|
| IC-59226 Vineet Lohia, Inf | IC-592288 Rajeev Nayan Singh, Inf |
| IC-59227 Sachin Gahlawat, Arty | IC-592289 Manish Priyadarshan, Inf |
| IC-59228 Barida Baran Pattanaik, AAD | IC-59291 Sanjay Kumar Jha, Arty |
| IC-59229 Omvir Panwar, Inf | IC-59292 Brijesh Nailwal, ASC |
| IC-59230 Amit, Inf | IC-59293 Gagandeep Singh, Arty |
| IC-59233 Prashat Singh Rakwal, Arty | IC-59294 Mayur Ambastha, Mech |
| IC-59234 Dev Kumar Panwar, Inf | IC-59295 S Harihar, Inf |
| IC-59236 Gaurav Sirohi, Inf | IC-59296 Nikhil Apte, Arty |
| IC-59239 Bhooshan Parikh, Inf | IC-59298 Babin Kumar, Inf |
| IC-59240 Mayank Singh Jamwal, Inf | IC-59299 V Ashok Kumar, Inf |
| IC-59242 Ajay Kumar Pathak, Arty | IC-59302 Jayant Singh, AC |
| IC-59243 S Pintoo Singh, EME | IC-59303 N Chaturvedi, Inf |
| IC-59247 Prafulla Shrivastava, AAD | IC-59305 Vishal Anand, AOC |
| IC-59248 Joyoush K Joseph, Inf | IC-59306 Mohinder Kishor Kesar, Inf |
| IC-59249 Pramod Rawat, Inf | IC-59307 Sandeep Singh Aulakh, Arty |
| IC-59250 Manujendra Singh, AC | IC-59309 Ajay Saigal, Arty |
| IC-59253 Jaspreet Singh Chahal, Inf | IC-59311 Vikram, Arty |
| IC-59254 Piyush Kumar Singh, Arty | IC-59312 Rahul Saxena, Arty |
| IC-59255 Anil Kumar Phogat, Mech | IC-59313 Vivek S Badve, AC |
| IC-59256 Ajay Thakur, Inf | IC-59314 Birendra Nath Chatterji, Arty |
| IC-59257 Abhishek Talwar, ASC | IC-59315 Amarjeet Chaudhary, ASC |
| IC-59262 Vinay, Inf | IC-59316 Hemant Kumar, AAD |
| IC-59263 Dinesh Raghu Raman, Inf | IC-59317 Deepak Sisodia, AOC |
| IC-59264 Shuvrangshu Chowdhury, Arty | IC-59318 Valluru Siva Sessa Sai, ASC |
| IC-59265 Balbir Singh, Inf | IC-59320 Pradeep Kumar Takshak, Inf |
| IC-59266 Kamal Bhardwaj, ASC | IC-59321 Mridul Bhatia, Int |
| IC-59267 Tushal Mittal, Inf | IC-59322 Ranjan Devrani, Inf |
| IC-59268 Shailendra Singh, Int | IC-59323 Anil Kumar Chadha, Arty |
| IC-59269 Raman Kumar Mishra, Arty | IC-59324 Krishna Vishwakarma, Inf |
| IC-59271 Ashok Kumar Maurya, Arty | IC-59326 Himanshu, Arty |
| IC-59272 Arindam Chaudhuri, AAD | IC-59328 Raj Kumar Shyam Singh, Inf |
| IC-59273 Anoop Singh Yadav, ASC | IC-59329 Dev Mohan, Inf |
| IC-59274 Pradeep Dahiya, Inf | IC-59330 Vikram Bir Basnet, ASC |
| IC-59275 Ajay Kumar Singh, Arty | IC-59332 Ajay Balakrishnan, Inf |
| IC-59277 Karam Raja Singh, Arty | IC-59333 Gorki Chandola, Mech |
| IC-59278 Ashwani Kumar Srivastava, Arty | IC-59334 Anup Sanmotra, Inf |
| IC-59279 Anupam Sharma, Inf | IC-59336 Sudhir Tokas, Inf |
| IC-59280 Atul Ghai, AAD | IC-59337 B Vijay Kumar, Inf |
| IC-59281 Pankaj Sharma, Arty | IC-59338 Neeraj, Inf |
| IC-59284 Sumeet Samyial, Inf | IC-59339 Tushar Kathuria, Arty |
| IC-59286 Ajay Pandit, Inf | IC-59340 Anand Singh Chauhan, Inf |
| | IC-59342 Mudit Arya, Arty |

| | |
|--|--|
| IC-59344 Manoj Kumar Hooda, AC | IC-59402 Mohit Prakash, AOC |
| IC-59345 Vivek Siwach, Inf | IC-59403 Mehar Pradhiti, ASC |
| IC-59346 Srinivasan V, AAD | IC-59404 Kulwant Singh Malik, Inf |
| IC-59348 Amit Bedi, Inf | IC-59407 Amit Ray, Arty |
| IC-59350 Vikas Sharma, Inf | IC-59408 Anoop Kumar, AOC |
| IC-59351 Antony Henry Selvam, Arty | IC-59409 Vinay Ahuja, ASC |
| IC-59352 Saurav Pati, Arty | IC-59410 Angad Reyar, Arty |
| IC-59353 Rohit Sharma, Inf | IC-59411 Tejinder Pal Singh Hundal, Inf |
| IC-59354 Jaiprakash Lamba, Mech | IC-59412 Manish Pathak, AC |
| IC-59355 Rajith R Unni, Int | IC-59414 Jajot Gurudev Bhaiyan, AAD |
| IC-59356 Parvinder Singh, Arty | IC-59415 Sudesh Bhangra, Inf |
| IC-59357 Arindam Pruthi, Inf | IC-59417 Amit Kumar, Inf |
| IC-59360 Anjan Kumar Haldar, Inf | IC-59418 Mohit Badoni, AOC |
| IC-59361 Vivek Prakash, AC | IC-59419 Naveen Singh, Inf |
| IC-59362 Kishan Singh Rawat, ASC | IC-59421 Dheeraj Kumar, Inf |
| IC-59363 Bhanja Kishore Pradhan, Inf | IC-59423 Sameer D Wakankar, Arty |
| IC-59364 Vijay Vir Singh Dahiya, Inf | IC-59424 Rajendra, Arty |
| IC-59365 Roshan Kumar, Arty | IC-59425 Satinder Singh, Inf |
| IC-59366 Manish Thapa, Mech | IC-59426 Vinay Singh, Mech |
| IC-59367 Vikas Gupta, AAD | IC-59427 Akash Pandey, AC |
| IC-59371 Manas Kumar Mohapatra, Inf | IC-59428 Muzammil Ahmad, Inf |
| IC-59372 Arun Mangain, Inf | IC-59429 Bhagwat Anant Ashok, Arty |
| IC-59374 Vikram Sral, AOC | IC-59430 Amit Kumar Singhal, Int |
| IC-59375 Manan Kandari, AOC | IC-59431 Mayank Gupta, AOC |
| IC-59376 Dinesh Chufal, Inf | IC-59432 Rakesh Kumar, Inf |
| IC-59377 Anil Shankarrao Gaikwad, Arty | IC-59434 Kaushik Misra, Arty |
| IC-59379 Arun Singh, ASC | IC-59435 Rahul Puri, ASC |
| IC-59381 Gaurav Sethi, Arty | IC-59440 Deshpande Vishnu Kumar, Inf |
| IC-59383 Sandip Mukherjee, Inf | IC-59441 Yadav Anil Punwasi, Inf |
| IC-59385 Gaurav Bhatia, Arty | IC-59443 Vikrant Panghal, AOC |
| IC-59386 Manish Shrivastava, AOC | IC-59445 Deshpande Aniruddha Sudhakar, AAD |
| IC-59388 Rakesh Chandra Barthwal Sharma, Inf | IC-59448 Amit Kumar, Arty |
| IC-59389 Pawan Bankal, ASC | IC-59449 Vinayak Sharma, Mech |
| IC-59391 Lokesh Deva, Inf | IC-59450 Amulya Pratap Singh, Inf |
| IC-59392 Harmanjit Singh Gill, Inf | IC-59451 Abhijeet Kumar Gupta, Inf |
| IC-59393 Ajay Pathania, Inf | IC-59452 Manoj Sangwan, Inf |
| IC-59394 Birendra Kumar Roy, Inf | IC-59453 Vikas Mehta, ASC |
| IC-59397 Ravinder Pal Singh, Inf | IC-59454 Manish Pandey, AC |
| IC-59398 Ashutosh Kumar, Arty | IC-59455 Diwakar Kumar, ASC |
| IC-59400 Kane Srirang Subash, Arty | IC-59456 Bharat Singh Rawat, Inf |
| IC-59401 Jeetendra Kumar Mohapatra, AAD | IC-59457 Somesh Kumar Das, Inf |

| | |
|--|---------------------------------------|
| IC-59458 Dev Kumar Singh, Inf | IC-59511 Atul Sharma, Arty |
| IC-59459 Amit Ranjan Bajpai, Engrs | IC-59512 Pushpendu Mishra, Arty |
| IC-59460 Prashant Sharma, Inf | IC-59514 Kuldeep Singh Mattoo, Mech |
| IC-59461 Muthangi Vamsi Prashanth, Inf | IC-59515 Sharad Sharma, Inf |
| IC-59462 Rohit Ashwani, Arty | IC-59516 Sanjay Nair, Inf |
| IC-59463 Nitin Upadhyay, AAD | IC-59518 Sted Enayet Kabir, AC |
| IC-59465 Ajay Kumar Pundkar, AOC | IC-59519 SG Sudhansu Sekhar, Arty |
| IC-59467 Naveen Khare, AC | IC-59520 Samir Kumar Singh, AAD |
| IC-59468 J Naveen Kumar, Arty | IC-59522 Ashish Agrawal, AOC |
| IC-59469 Kuldeep Singh, AAD | IC-59523 Rajnish Kumar Maahi, Arty |
| IC-59470 Manoj AP, Inf | IC-59525 Bishwajeet Roy, ASC |
| IC-59472 Sumit Bansal, AOC | IC-59527 Shashi Kant Chhimwal, Int |
| IC-59474 Moammad Adil Tabrez, Arty | IC-59528 Manmeet Singh Bijjan, Inf |
| IC-59475 Rajat Tandon, Arty | IC-59529 Abhishek Mishra, Inf |
| IC-59478 Balbir Jha, Inf | IC-59530 Abir Dutta, Arty |
| IC-59479 Upjit Singh Randhawa, Inf | |
| IC-59480 Partha Sarathi Singha, AOC | IC-61961 Shelke Mahesh Sarjerao, Sigs |
| IC-59481 Manish Kothari, Engrs | IC-61962 Arun Sekhar, EME |
| IC-59482 Mohit Nayal, Mech | IC-61963 Narayana MT, Engrs |
| IC-59484 Pankaj Subba, Inf | IC-61964 Ravinder Yadav, Sigs |
| IC-59485 Pushpam Kumar, Inf | IC-61965 Pramod Panicker, Engrs |
| IC-59488 Naveen Joshua Ponsonby, Inf | IC-61966 Rushikesh Dhotre, Engrs |
| IC-59489 Alfred Fernandes, AAD | IC-61969 Abhishek Tyagi, Engrs |
| IC-59490 Sourabh Chatterji, AC | IC-61970 Vasist GR, Engrs |
| IC-59491 Nitin Thapa, Inf | IC-61971 Avinash Desh Kulkarni, EME |
| IC-59492 Nirmal Kumar Dubey, Arty | IC-61972 Santosh Roy, EME |
| IC-59493 Rahul Nair, Arty | IC-61973 Jayant Kanungo, Engrs |
| IC-59494 Anil Kumar, Arty | IC-61974 Chinmay Girish Parikh, EME |
| IC-59495 Aman Grewal, Arty | IC-61975 Jitendra Rawat, EME |
| IC-59497 Radhakrishnan Kurali, Inf | IC-61976 Rameet Singh, EME |
| IC-59498 Rajiv Yadav, ASC | IC-61977 Sachin Chopra, EME |
| IC-59499 Anuj Prakash Gupta, AAD | IC-61978 Harkesh Kumar, Engrs |
| IC-59500 Ajay Tomar, Inf | IC-61979 Vikash Kumar Gupta, Engrs |
| IC-59501 Yadwinder Kumar Puri, Inf | IC-61980 Kumar Amitendram, Engrs |
| IC-59502 Ajmer Singh Chib, Inf | IC-61981 Vivek Sharma, Engrs |
| IC-59503 Ranvir Singh Dhingra, Inf | IC-61982 Aman Preet Singh, EME |
| IC-59504 Vishal Sunny, Arty | IC-61983 Neerav Tuli, Engrs |
| IC-59505 Anurag Singh Sengar, Inf | IC-61984 Aditya Murari Indoriya, EME |
| IC-59507 Ritesh Kumar Singh, ASC | IC-61985 Mand Mandip Singh, Sigs |
| IC-59509 Sanjeev Dwivedi, AAD | IC-61986 Anmol Francis Kandir, Engrs |
| IC-59510 Jaiveer Singh, Inf | IC-61988 Rajeev Kumar Singh, EME |

—11 Dec 2005

IC-61989 Rana Karan Singh, Engrs
 IC-61990 Rajesh Gupta, EME
 IC-61991 Parekshit Mehra Raj Kumar, Sigs
 IC-61992 Harkeerat Singh, Engrs
 IC-61993 K Suresh Selva Kumar, Sigs
 IC-61995 Salian Prashant Sadashiv, Sigs
 IC-61996 Shivakumar B, Sigs
 IC-61997 Rahul Shashikant Kelkar, EME

—12 Dec 2005

AJAY GOEL
 Dy. Dir.
 MS-8C

No. 230, dated 5th April 2006.—The President is pleased to make Substantive Promotion of Lt General to the following officers:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Lt General

IC No., Rank, Name, Arm and Date of subs rank

IC-16289 Maj Gen Bhopinder Singh, AVSM, VSM, Inf—11 May 2004 with seniority from 27 Nov 2001 without effect on pay and pension.

IC-17576 Maj Gen AS Bahia, AVSM*, Inf—30 Jan 2004.

IC-17587 Maj Gen Balbir Singh, VSM*, Inf—29 Jun 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17594 Maj Gen Devraj Singh, AVSM, Inf—29 Jun 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17615 Maj Gen MC Bhandari, AVSM*, Inf—03 Aug 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17622 Maj Gen Deepak Kapoor, SM, VSM, Arty (GC)—29 Jun 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17640 Maj Gen KK Khanna, AVSM*, Inf—29 Jun 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17644 Maj Gen Daljeet Singh, VSM, AC—01 July 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17699 Maj Gen Ashok Kapur, VSM, Inf—01 Aug 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17214 Maj Gen MG Girish, EME—01 Jul 2004 with seniority from 01 Mar 2004 without effect on pay and pension.

IC-17733 Maj Gen Madan Gopal, AVSM*, Inf—01 Mar 2004.

IC-19001 Maj Gen K S Jamwal, AVSM, VSM*, Arty (GC)—01 Aug 2004 with seniority from 30 Jun 2004 without effect on pay and pension.

IC-19002 Maj Gen OP Nandrajog, VSM, Inf—01 Sep 2004 with seniority from 30 Jun 2004 without effect on pay and pension.

IC-16591 Maj Gen MG Datar, VSM, Sigs—30 Jun 2004.

IC-16309 Maj Gen TA D'cunha, AOC—30 Jun 2004.

IC-19009 Maj Gen HS Lidder, UYSM, YSM, VSM, Inf—01 Oct 2004 with seniority from 29 Jul 2004 without effect on pay and pension.

IC-19050 Maj Gen PK Singh, AVSM, Arty GC—01 Dec 2004 with seniority from 29 Jul 2004 without effect on pay and pension.

IC-19077 Maj Gen ML Naidu, YSM, Rajput—01 Dec 2004 with seniority from 29 Jul 2004 without effect on pay and pension.

IC-19080 Maj Gen Susheel Gupta, AVSM, YSM, JAK, Rif—01 Dec 2004.

IC-17239 Maj Gen BS Dhaliwal, AVSM, VSM, Engrs—01 Jan 2005.

IC-17631 Maj Gen Ashok Vasudeva, AVSM, VSM, Arty—01 Jan 2005.

IC-19393 Maj Gen KDS Shekhawat, VSM, Arty (GC)—01 Jan 2005.

IC-19004 Maj Gen AS Bajwa, AVSM, VSM, Arty—01 Feb 2005.

IC-19407 Maj Gen SK Dahiya, ASC—01 Feb 2005.

IC-19410 Maj Gen Mohan Pande, VSM, Mahar—01 Oct 2005 with seniority from 03 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-19429 Maj Gen ZU Shah, SM, VSM, Arty (GC)—01 Oct 2005 with seniority from 03 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-19440 Maj Gen Sudhir Sharma, AVSM, YSM, VSM, Guards—01 Mar 2005 with seniority from 03 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-19510 Maj Gen CB Vijan, Arty (GC)—01 Aug 2005 with seniority from 03 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-19550 Maj Gen RK Mehta, AVSM, YSM, VSM, Para—04 Feb 2005.

IC-19834 Maj Gen HS Panag, AVSM, Mech Inf—25 Aug 2005 with seniority from 04 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-19038 Maj Gen KS Rao, SC, SM, Engrs—25 Aug 2005 with seniority from 19 Feb 2005 without effect on pay and pension.

IC-19845 Maj Gen DN Desai, VSM, AC—01 Mar 2005.

IC-19848 Maj Gen Thomas Mathew, Rajput—25 Aug 2005 with seniority from 15 Apr 2005 without effect on pay and pension.

IC-19860 Maj Gen Mandhata Singh, YSF—25 Aug 2005 with seniority from 22 May 2005 without effect on pay and pension.

IC-19868 Maj Gen SS Dhillon, AVSM, VSM, Gren—25 Aug 2005 with seniority from 17 Jun 2005 without effect on pay and pension.

IC-19873 Maj Gen PR Gangadharan, AVSM, VSM*, MLI—25 Aug 2005 with seniority from 17 Jun 2005 without effect on pay and pension.

IC-19853 Maj Gen Arvind Mahajan, AVSM, VSM*, EME—25 Aug 2005.

IC-17759 Maj Gen DDS Sandhu, AOC—06 Sep 2005.

N K PHUKAN
AMS/MS(X)

(AIR BRANCH)

No. 231, dated 10th April 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

To be Substantive Air CMDE (Met Branch)

Air Cmde (Actg) CP Randev (12596), Met—01 Feb 2005

ADM BRANCH

To be Substantive Air CMDE (Adm Branch)

Particular of the Air Officers and DOS

Air Cmde (Actg) JA Sathe (12996), Adm—01 Oct 2004

Air Cmde (Actg) TK Rath (13220), Adm—01 Mar 2005

Air Cmde (Actg) KNV Nair (13082), Adm—24 May 2005

AE BRANCH

To be Substantive Air CMDE (AE Branch)

Particulars of the Air Officers and DOS

Air Cmde (Actg) HV Bansal (12578), AE(M)—24 Feb 2005

Air Cmde (Actg) R Kumar (12813), AE(M)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) MM Chaturvedi (13313), AE(L)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) P Mehrotra (13316), AE(M)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) RK Dharmani (13490), AE(L)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) R Padmanabhan (13475), AE(L)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) SS Gunashekar (13487), AE(M)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) VK Tiwari (13198), AE(L)—01 Apr 2005

Air Cmde (Actg) SR Gopalakrishnan (13464), AE(L)—01 Apr 2005

To be Substantive GP Capt (AE Branch)

Particulars of the Officers and Date

GP Capt (Actg) TK Biswas (14146), AE(L)—01 Jun 2004

[His name will appear between GP Capts SK Sharma (14815), AE(L) and MK Srivastava (15111), AE(L) in the Combined Gradation List].

GP Capt (Actg) SV Phatak (15104), AE(L)—17 Jun 2004/01 Jun 2004(NS)

[His name will appear between GP Capts MK Srivastava (15111), AE(L) and MR Ahir (15267), AE(L) in the Combined Gradation List].

GP Capt (Actg) PKS Prasad (15257), AE(M)—03 Jun 2004/01 Jun 2004 (NS)

[His name will appear between GP Capts CS Sharma (15290), AE(M) and BPS Cheema (15494), AE(M) in the Combined Gradation List].

GP Capt (Actg) S Mukhopadhyay (15654), AE(L)—01 Aug 2004

[His name will appear between GP Capts R Sharma (15646), AE(M) and S Gulati (15835), AE(M) in the Combined Gradation List].

GP Capt (Actg) SS Mehdi (15832), AE(M)—01 Aug 2004

[His name will appear between GP Capts DM Kundurthi (15821), AE(L) and R Jayaprasad (15825), AE(L) in the Combined Gradation List].

GP Capt (Actg) AK Ghosh (15965), AE(M)—01 Nov 2004

[His name will appear between GP Capts N Swain (15961), AE(L) and G Rai (15969), AE(M) in the Combined Gradation List].

LGS BRANCH

To be Substantive GP Capt (LGS Branch)

Particulars of the Officer and Date

GP Capt (Actg) PK Gupta (14058), LGS—01 Nov 2004

GP Capt (Actg) SK Arora (14505), LGS—01 Nov 2004

GP Capt (Actg) RS Saharawat (14511), LGS—01 Mar 2005

GP Capt (Actg) S Aggarwal (14957), LGS—01 Sep 2005

FLYING BRANCH

To be Substantive GP Capt

Particulars of the Officer and Date

GP Capt (Actg) K Pathak (15715), F(P)—01 Apr 2003/
13 Jan 2003 (NS)[His name will appear between GP Capts C Bali (15708)
F(P) and HKJS Sokhey (15858) F(P) in the Combined
Gradation List].GP Capt (Actg) C Subramaniam (Retd) (16089), F(P)—
01 Nov 2003[His name will appear above GP Capt S Chhabra (16032)
F(P) in the Combined Gradation List].

ACCTS BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (Select)

Name, Number, BR and Date of Subs

RM Danak (16461), Accts—17 Apr 2002/01 Aug 2001
(NS)

MS Shaik (16865), Accts—01 Aug 2001

RVS Reddy (16866), Accts—01 Aug 2001

NPS Dalmi (16872), Accts—10 Dec 2001

VS Giridhar (16875), Accts—26 Mar 2002/10 Dec 2001
(NS)

IS Kharb (16877), Accts—10 Dec 2001

EP Padmaraj Nambiar (16886), Accts—28 Jan 2002

ADM BRANCH

To be Substantive Wg Cdrs (ADM Branch)

P Kulshreshtha (Retd) (16431), ADM—01 Nov 2003

S Nair (16644), ADM—01 Nov 2003

JS Nayal (Retd) (16648), ADM—01 Nov 2003

S Jacob (16652), ADM—01 Nov 2003

A Luther (16657), ADM—01 Nov 2003

RL Syngal (16843), ADM—01 Nov 2003

SK Verma (16845), ADM—01 Nov 2003

R Sharma (16847), ADM—01 Nov 2003

KP Sharma (16851), ADM—01 Nov 2003

MA Sridhar (17027), ADM—01 Nov 2003

NK Sharma (17038), ADM—16 Mar 2004

R Kapoor (17039), ADM—01 Apr 2004

SR Bardhan (17055), ADM—01 Apr 2004

SK Malik (17056), ADM—01 May 2004

VK Tiwari (17058), ADM—01 May 2004

MK Bose (Retd) (17062), ADM—01 Jun 2004

AK Botre (17063), ADM—01 Jun 2004

MK Chitgupi (17195), ADM—01 Jul 2004

S Roychoudhury (17196), ADM—01 Jul 2004

BS Chillar (17197), ADM—01 Aug 2004

D Victor (17198), ADM—01 Aug 2004

A Sarin (17199), ADM—01 Oct 2004

N Krishnamurthy (17203), ADM—01 Oct 2004

K Narayanan (17204), ADM—01 Oct 2004

MK Dixit (17205), ADM—01 Oct 2004

NS Vaidya (17208), ADM—01 Nov 2004

K Gopalakrishnan (17211), ADM—01 Nov 2004

RS Mehta (17212), ADM—01 Nov 2004

KC Kalita (16622), ADM—15 Dec 2004

S Johri (17213), ADM—15 Dec 2004

P Pandey (17218), ADM—15 Dec 2004

SB Walwadkar (17222), ADM—15 Dec 2004

AS Negi (17226), ADM—15 Dec 2004

PK Bapat (17227), ADM—15 Dec 2004

BS Sabherwal (17374), ADM—15 Dec 2004

NS Taprial (17376), ADM—15 Dec 2004

R Sood (17378), ADM—15 Dec 2004

S Shukla (17379), ADM—15 Dec 2004

K Shah (17380), ADM—15 Dec 2004

OS Krishna (17381), ADM—15 Dec 2004

ISS Raju (Retd) (17389), ADM—15 Dec 2004

M Mohanta (17390), ADM—15 Dec 2004

RS Mehndiratta (17394), ADM—15 Dec 2004

KV SHANKAR

Jt. Dir.

PO-2(B)

No. 232, dated 10th April 2006.—The President is pleased
to make the following Substantive Promotion:—

INDIAN AIR FORCE

F(P) BRANCH

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

DS Bawa (22956) w.e.f. 18 Jun 2004

S SRIVASTAV

Wg Cdr

JDPO-3(D)

No. 233, dated 3rd April 2006.—The President is pleased
to retire Shri O. P. Grover, CSSS, Private Secretary, Ministry

of Defence with effect from 28.02.2006 (AN) on attaining the age of superannuation.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 234, dated 10th April 2006.—The President is pleased to release the undermentioned Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (Class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or upto the age of 40 years whichever is earlier:—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

SS No., Name, Arm/Service and Date of release

SS-35582K Anoop Bhatt, AOC—05 Mar 2003

SS-35709F Surinder Singh, AOC—20 Aug 2003

SS-35725Y Bhupendra Singh Rathore, Inf—20 Aug 2003

SS-36485Y Sandeep Singh, Sigs—12 Jan 2003

SS-36649K Sumit Kumar Upreti, Arty—18 Mar 2003

SS-36652K Karan Singh, Arty—31 Jul 2003

SS-36934H Amiya Kanta Panda, Arty—17 Jan 2003

SS-37051L Ranjit Srinivas Mandke, EME—04 Sep 2002

SS-37254P Manbir Singh Dhillon, AC—20 Jun 2003

SS-37268P Devbans Singh Sidhu, Arty—06 Mar 2003

SS-37324H Mayur Lalith Raj. AAD—06 Mar 2003

SS-37326N Mayank Vats, Arty—06 Mar 2003

SS-37329F K Ramprasad, Inf—06 Mar 2003

SS-37338H Navin Kumar Kansal, EME—06 Mar 2003

SS-37345Y Bijay Mukherjee, Arty—06 Mar 2003

SS-37481P Gurbir Singh Dhillon, Arty—04 Sep 2003

SS-37491Y Sameer Kapoor, Arty—04 Sep 2003

SS-37524Y Manish Sharma, Int—04 Sep 2003

SS-37562P Bhatt Sanjay Kanaiyalal, Engrs—04 Sep 2003

SS-37584N Manish Juyal, Sigs—30 Dec 2003

MLN SRAVAN KUMAR

Col

Col MS-7

ARMY BRANCH

No. 235, dated 10th April, 2006.—The undermentioned officer is awarded the following punishment by the SGCM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-43824 Major HS Aulakh, ASC.

(a) To be cashiered, and

(b) to forfeit all arrears of pay and allowances and other public money due to him at the time of his cashiering.

—15 Dec 2003

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the GOI, MOD.

WS-00089A Capt Preeti Singh, EME

Dismissal from service under AA Sec. 19 read with Army Rule 14 by GOI, MOD Order No. C/060270/SC/298/AG/DV-2/2541/D (AG) dated 03 Aug 2004.

—03 Aug 2004

The undermentioned officer is awarded the following punishment by the GCM.

IC-54208 Capt B Rehman Hussain, ASC

To be dismissed from service.

—17 Apr 2005

AJAY GOEL

Dy. Director

MS-8C

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006.